

जिला स्तरीय होगा चुवाड़ी छिन्ज मेला : पटानिया

सफल आयोजन के लिए एक लाख ग्यारह हजार की राशि देने का किया ऐलान

हामिद चम्बा: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया ने कहा कि चुवाड़ी छिन्ज मेले (दंगल) को अगले वर्ष से जिला स्तरीय मेले के रूप से आयोजित किया जाएगा। मेले के प्रारूप को लेकर मेला आयोजन समिति जन सहमति के आधार पर मेले की रूपरेखा तय करे। कुलदीप सिंह पटानिया रविवार को भटियात उपमंडल मुख्यालय के चुवाड़ी में आयोजित आयोजित छिन्ज मेले की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने आयोजन समिति को सफल आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि मेले व त्यौहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख हिस्सा हैं। इसे संजोए रखना समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। इनसे सामाजिक सहयोग, समरसता, सौहार्द तथा भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने छिन्ज मेला



सिंहुन्ता को उपमंडल स्तरीय करने की घोषणा भी अपने संबोधन में की। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य में युवाओं का नशे की तरफ बढ़ता रुझान

ऐलान
कुलदीप सिंह पटानिया ने इससे पहले छिन्ज मेले के शुभारंभ अवसर पर लख दाता मन्दिर से शुरु हुई

बेहद चिंता का विषय है। शारीरिक दमखम के लिहाज से इस तरह के आयोजनों से युवाओं को प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। कुलदीप सिंह पटानिया ने बुद्धिजीवी वर्ग का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को नशे की दलदल से बचाने के लिए आगे आए। विधानसभा अध्यक्ष ने मेला आयोजन समिति को सफल

आयोजन के लिए एक लाख ग्यारह हजार की राशि देने की घोषणा की। कुलदीप सिंह पटानिया ने इससे पहले छिन्ज मेले के शुभारंभ अवसर पर लख दाता मन्दिर से शुरु हुई शोभायात्रा की अगवाई की। विधानसभा अध्यक्ष को आयोजन समिति द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर महासचिव कांग्रेस कमेटी राजीव कौशल, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजय कंवर, उपाध्यक्ष नगर पंचायत सुरेंद्र चादक, प्रधान छिन्ज मेला कमेटी टेकचंद, उप प्रधान अरविंद पाठक उप अधीक्षक पुलिस रंजन शर्मा, तहसीलदार सुमन धीमान, सहित आदि उपस्थित रहे।

एसपी जैरथ

नाहन: उपाध्यक्ष विधानसभा विनय कुमार ने सिरमौर जिला के प्रवास कार्यक्रम के दौरान रेणुका विधान सभा क्षेत्र की लानाचेता पंचायत में जन समस्याएं सुनी। लानाचेता में प्रतिनिधिमंडलों ने उपाध्यक्ष विधानसभा के समक्ष विशेष तौर पर गुसान रोड तथा लानाचेता के लिए पेयजल योजना की माँग रखी। जिसके लिए विनय कुमार ने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया की सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरांत जल्द से जल्द गुसान रोड तथा लानाचेता पंचायत के लिए पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा ताकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत क्षेत्र के लोग इनका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को कहा कि



वह रेणुका विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सदैव तत्पर हैं उनका हमेशा प्रयास रहता है कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हर मूलभूत सुविधा घर द्वार में प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि वह समय-समय पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं तथा जो भी

समस्या उनके संज्ञान में लाई जाती है वह तत्परता के साथ उनका समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने उपाध्यक्ष विधानसभा के समक्ष सामूहिक तथा व्यक्तिगत समस्याएँ भी रखी। विनय कुमार ने प्राप्त अधिकांश समस्याओं का निपटारा मौके पर किया।

9 परगनों की जातर पारंपरिक बाध्य यंत्रों के साथ पहुंची चूड़धार

श्रद्धालुओं ने रात्रि ठहराव बंगा पाणी वैरभ व तीसरी में खुले आसमान के नीचे किया

एसपी जैरथ
नाहन: रेणुका पच्छाद क्षेत्र के 9 परगनों की जातर रविवार को चूड़धार पहुंची। क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु शनिवार को शिरगुल देवता की जन्म स्थली शायी से व नौहराधार से चूड़धार के लिए रवाना हुए थे। श्रद्धालुओं ने रात्रि ठहराव बंगा पाणी वैरभ व तीसरी में खुले आसमान के नीचे किया। नौहराधार क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने तीसरी नामक स्थान पर पारंपरिक बाध्य यंत्रों के साथ शायी से आए देवते का प्राचीन परंपरा के साथ भव्य स्वागत किया गया। रविवार को रविवार



को जातर चूड़धार पहुंची। चूड़धार पहुंचने के बाद शिरगुल महाराज शायी के देवते को शाही स्नान करवाया गया। उसके बाद

देवता ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। देवता के साथ आई जातर ने मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद लगभग 12500 फुट की ऊंचाई पर स्थित शिवलिंग पर पहुंच कर श्रद्धालुओं ने शिव की प्रतिमा व शिवलिंग पर पूजा-अर्चना की। शिवलिंग से लौटने के बाद एक बार श्रद्धालु फि र मंदिर पहुंचे और अराध्य देव से क्षेत्र की खुशहाली व समृद्धि के लिए अर्चना की। शिरगुल महाराज ने श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद दिया। उसके बाद जातर देवता के साथ

जातर अपने-अपने परगनों के लिए रवाना हुई। तीसरे वर्ष चूड़धार पहुंचती है जातर राजगढ़, पच्छाद व रेणुका क्षेत्र के 9 परगनों की जातर हर तीन वर्षों के बाद चूड़धार जाती है। जातर में हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। शिरगुल देवता शिलाई, रेणुकाजी व पच्छाद विस क्षेत्र के अलावा शिमला जिले के लाखों लोगों के अराध्य देवता है। यह जातर क्षेत्र की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए की जाती है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है।

26 जून से चंबा प्रवास पर होंगे राजस्व, आरपीजी मंत्री

हामिद चम्बा: राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं आरपीजी मंत्री जगत सिंह नेगी 26 जून को सांय जिला के जनजातीय उपमंडल किलाड पहुंचेंगे। जगत सिंह नेगी के प्रवास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि वह 27 जून को आवासीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में सुबह 11 बजे परियोजना सलाहकार समिति (पीएसी) तथा दोपहर बाद 4 बजे स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (लाड) बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनका रात्रि ठहराव विश्राम गृह किलाड में रहेगा। 28 जून को जगत सिंह नेगी सुबह 9 बजे घरवास में



एकलव्य आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट मंत्री साच पास रवाना होंगे। वह दोपहर 12:30 बजे भूत मैदान के सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास करने के साथ साच पास-भूत मैदान संपर्क सड़क का शिलान्यास भी करेंगे।

नाहन-शिमला रोड पर लुढ़का ट्रक, ड्राइवर जख्मी



एसपी जैरथ
नाहन: नाहन-शिमला रोड कार्मल स्कूल के पास एक बार फिर एक भारी वाहन पलट गया है। मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक संख्या एचपी-71-8212 नाहन की ओर से सीमेंट लेकर श्री रेणुका जी ददाहू की ओर जा रहा था। घटना आज सोमवार सुबह 5 बजे के आसपास की है। जैसे ही ट्रक कार्मल स्कूल के मोड़ के पास पहुंचा तो चालक विजयपाल वाहन से नियंत्रण खो बैठा। ट्रक सड़क पर ही पलट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक घटना के दौरान ट्रक में अकेला ही था। ट्रक के पलटने से जोर से हुई आवाज के चलते नजदीक रह रहे लेक्चरार हर-देव सिंह अडोस पड़ोस के कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के द्वारा चालक को घायल अवस्था में ट्रक से बाहर निकाला गया। हरदेव सिंह के द्वारा 108 पर सूचित कर एंबुलेंस बुलाई गई। इस दुर्घटना में चालक के कंधे में गंभीर चोट आई है। जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ इस रांग सड़क पर नीचे की ओर से आ रहे वाहन को बचाने के

हादसा
ट्रक कार्मल स्कूल के मोड़ के पास पहुंचा तो चालक विजयपाल वाहन से नियंत्रण खो बैठा। ट्रक सड़क पर ही पलट गया

दौरान यह हादसा हुआ। बता दें कि नाहन से बेरोज फेक्ट्री तक इस सड़क पर दर्जनों हादसे हो चुके हैं बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन कंट्रोल विधुय में बनाए गए मकान पर कार्यवाही नहीं कर पाया है। लोगों के द्वारा सड़क के किनारे ऊंचे रैप बना दिए गए हैं जो कि दुर्घटना का बड़ा कारण बन रहे हैं। यही नहीं सरकार और प्रशासन बाईपास अल्टरनेट रोड को भी शीघ्र सुचारु कर पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। इस दुर्घटना में चालक की जान तो बच गई मगर वहां को और वाहन में लदे सीमेंट के गिर जाने से मालिक को भारी नुकसान हुआ है। यही नहीं इस सड़क के किनारे पर अवैध रूप से खड़े किए गए वाहनों पर भी पुलिस शक्ति नहीं कस पा सकि है।

विश्वविद्यालय के परिणामों पर छात्रों ने जताई शंका

खेमचंद शास्त्री
मंडी: अखिल भारतीय विद्यार्थी एसपीयू मंडी ईकाई ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा मार्च माह में करवाई गई एंड सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणामों पर सवाल उठाए हैं। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष हर्षित मिन्हास ने कहा कि मंडी विश्वविद्यालय के परिणामों पर छात्रों ने लंबे समय से शंकाएं जताई हैं। अधिकतम छात्रों को अपेक्षा के अनुसार कम अंक प्राप्त हुए तो कुछ छात्रों ने ये भी माना कि उन्हें अपेक्षा से कई अधिक अंक मिले। ऐसे में ये चिंता का विषय है। विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द हर पेपर के अनुसार



मूल्यांकन मानदंड तय कर देने चाहिए ताकि परीक्षक मानदंडों के अनुसार तय अंक ही छात्रों को प्रदान करें। ये चिंता का विषय है कि आज दिन तक उच्च शिक्षा में किसी ने भी इस विषय को नहीं उठाया, परंतु हम विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस विषय को पूरे प्रदेश भर में उठाएँ और सभी छात्रों को न्याय दिलवाने का कार्य करेंगे।

भाजपा किसान मोर्चा जिला कुल्लू की बैठक

जिला अध्यक्ष दूनी चंद की अध्यक्षता में संपन्न

श्याम कुल्वी
कुल्लू: भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला कुल्लू की बैठक जिला अध्यक्ष दूनी चंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र प्रभारी अखिलेश कपूर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव में हिमाचल में हुई ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए अखिलेश कपूर ने कहा कि इन चुनावों में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व



मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन, मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री सुरेश शर्मा के मार्गदर्शन में सभी विधायकों एवं प्रदेश संगठन सहित सभी जिला एवं

मंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने आम जनमानस का भरपूर सहयोग एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। बैठक में जिला अध्यक्ष दूनी चंद ने किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री अखिलेश कपूर को सांसद कंगना रानोत के प्रभारी के नाते जिम्मेदारी

देने पर संगठन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश महामंत्री व मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी अखिलेश कपूर ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाहन क चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने इन चुनावों में कड़ी मेहनत की है। बैठक में चुनावों की समीक्षा भी की गई।

हिमाचल के हर जिलों में बनेगी गौशालाएं: बलदेव ठाकुर कवि-आलोचक गणेश गनी को ओकार्ड साहित्य सम्मान-2024

बलदेव ठाकुर फि र बने जय हिमाचल वीर कल्याण समिति के अध्यक्ष

श्याम कुल्वी
कुल्लू: प्रदेश के हर जिला में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि गौमाताएँ सड़कों पर नजर न आए। इसके अलावा युवाओं को नशे से बचाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और नशामुक्ति केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। यह बात जय हिमाचल वीर कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव ठाकुर ने यहां शाहवाड़ा में कही। वे यहां जय हिमाचल वीर कल्याण समिति के प्रदेश जनरल हाउस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान



उन्हें फिर से एक बार समिति का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर प्रदेशभर के सभी सदस्य, पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। सबसे पहले यहां पूर्व मुख्यमंत्री

आधुनिक हिमाचल के निमार्ता वीरभद्र सिंह की जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि समिति को पूरे प्रदेश में मजबूत बनाया जाएगा

और समिति के हर कार्यो को मजबूती से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज चिट्टा जैसी बीमारी में युवा धंस रहा है। इसके लिए समिति व्यापक अभियान छेड़ रही है। पूरे प्रदेश में समिति इस अभियान को चलाएगी। उन्होंने सभी प्रदेश के लोगों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पडने पर नशामुक्ति केंद्रों को भी स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे वेसहारा पशुओं के लिए हर जिला में गौशालाएँ खोली जाएगी और इन पशुओं के चारे की भी व्यवस्था की जाएगी।

श्याम कुल्वी
कुल्लू: विख्यात कवि कुमार कृष्ण इस कार्यक्रम के मुख्यातिथि, अब्दुल बिसमिल्लाह विशेष आमंत्रित अतिथि, देवेन्द्र गुप्ता विशिष्ट अतिथि व मुख्य वक्ता जबकि राकेश गुप्ता ने अध्यक्षता की। साहित्यकार देवकन्या ने प्रशस्ति पत्रकार गणेश गनी का परिचय दिया। सेतु पत्रिका के सम्पादक डॉक्टर देवेन्द्र गुप्ता ने अपने सम्बोधन में गणेश के समग्र व्यक्तित्व व कृतिगत विस्तार से प्रकाश डाला। किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर पुस्तक से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे, हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित कवि, आलोचक एवं किस्सागोई के लिए



गणेश गनी को वर्ष 2024 के ओकार्ड साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आठवें राष्ट्रीय पुस्तक मेले के अवसर पर ओकार्ड

इंडिया द्वारा आयोजित साहित्य सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्यातिथि डॉ कुमार कृष्ण ने कहा कि गणेश गनी के साथ होना कविता के साथ होना है, उनकी रचना किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर एकेडमिक आलोचना की शुक्तता पर करारा प्रहार है।

माइंड ऑपरेशन अकादमी में नशा मुक्त भारत परखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन

संगराय
जोगिंद्रनगर: एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स कुल्लू टीम के माध्यम से 12 जून से 26 जून तक चल रहे नशा मुक्त भारत परखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान माइंड ऑपरेशन अकादमी के सभी छात्रों को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया। ए एनटीएफ टीम कुल्लू ने जानकारी देते हुए कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे में डूबी जा रही है और उनको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति आपके आस पास नशा कर रहा है तो आप उसकी शिकायत ऑनलाइन एप ड्रग फ्री हिमाचल के माध्यम से



शिकायत कर सकते हैं जिससे शिकायत करने वाले का नाम नहीं आता है और सी आई डी टीम शिमला के पास वह शिकायत पहुंच जाती है फिर सी आई डी टीम आगे विभाग को आगे कार्यवाही के लिए भेजती है। इससे नशाखोरों को पकड़ में आसानी हो जाती है। अकादमी के निदेशक राम प्रकाश

ठाकुर ने भी बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया निदेशक ने कहा नशा हमारे समाज के लिए दिन व दिन अभिशाप बनता जा रहा है जो कैसर से भी खतरनाक रूप धारण कर रहा है। निदेश ने एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स टीम का बच्चों जो महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद किया।

सेल्स ऑफि सर के 20 पदों के लिए 29 जून को इंटरव्यू का आयोजन

चमन शर्मा
शिमला: क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टाईमप्रो मोहन इंस्टेट न्यू दिल्ली (एक्सिस बैंक) द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जिक्यूटिव (सेल्स ऑफि सर) के 20 पदों के लिए 29 जून, 2024 को प्रातः 11 बजे क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय यूएस क्लब शिमला में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्टीम में स्नातक होनी चाहिए।

इंटरव्यू
आयु वर्ग 20 से 28 वर्ष के मध्य होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार जो इस पद से संबंधित योग्यता रखते हो, इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक आवेदिका का नाम रोजगार कार्यालय में संबंधित साइट में घर बैठे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूमे सहित 29 जून, 2024 को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें।

कार्यालय ग्राम पंचायत बग्गी तुंगल विकास खंड सदर मंडी निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत बग्गी तुंगल विकास खंड सदर मंडी 2024-25 के लिए विभिन्न विकास कार्य के निष्पन्न हेतु आवश्यकतानुसार अधिनियम क्रि.सं. 33 के अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाएं दिनांक 06-07-2024 को अपराह्न 11 बजे तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में पेश कर्नी चाहिए। निविदाएं इन्ही दिनांक 06-07-2024 को अपराह्न 01 बजे के बाद ग्राम पंचायत को निर्माण कर्मियों व निविदा दाताओं का उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पंचायत कार्यालय में खोली जाएगी।

क्र.सं.	सामग्री का विवरण 10:00AM- 2:00PM	मात्रा जिसमें मूच्य वांछित है
1	A रेत (खड़/नदी) B ऋत	जति घन मीटर
2	बजरी (खड़/बकर) 10mm,20mm,40mm	जति घन मीटर
3	पत्थर/बदरस्टोन	जति घन मीटर
4	कोहर/गोसिंग	जति घन मीटर
5	इंटर(2 nd Class)	जति नंबर
6	A रीटिंग व रसल B भवन रीटिंग	जति संकेत फुट
7	RCC पाप व कोहर: 300mm,450mm,600mm,900mm/Paver	जति नंबर
8	जेसीबी हेतु	जति/घंटा, 240000/घंटे वरु TDS 10% कटौत
9	सीमेंट कितना जति की दर के हिसाब से गदल से काले बरत उठाया व पहाई के साथ फेकर	जति क्वी
10	फेकर	60mm,80mm
11	Mixture	जति घंटा
12	CIB	जति घंटा

नियम व शर्तें:

- निविदाएं केवल पंजीकृत डाक द्वारा की पंचायत कार्यालय में प्रात को जाएगी किसी अन्य माध्यम से प्रात होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- निविदादाता के पास अथवा पंजीकरण, बैंक संख्या, जीएसटी नंबर होना आवश्यक है।
- उत्तेजक/आगुनिकारों को खरन विषया से इस्तफाईयत पूर्व पारने जमा करवाने होंगे। (एच पीएच) एच पीएच उपलब्ध न करवाने पर सामग्री सम्बंधित उपलब्धता कायम में 60-8 प्रति एस्टीमेशन से कटौत जाएगी।
- सामग्री की आगुनी को, विषया की पंजीकरण के अनुकूल होनी चाहिए।
- निविदा सामग्री कार्यभार का जहां तक वादी कांति है वहां उपलब्ध करवानी होंगी।
- निविदा दाता को 20000/- रु पछोहर/घण्टीकर निविदा पंचायत के न्याय जमा करवानी होंगी, सभी निविदाएं मात्रा होंगी अन्यथा विना पछोहर रति के निविदाएं रर सम्भो जावगी।
- निविदा दाता यदि सम्भो आगुनी सम्बन्धना नहीं कर ताक तसको जर्मियन सुरक्षित रति प्रापित नहीं होंगी।
- समान दर रहने को हिसाब में एक या एक से अधिक निविदादाताओं के लिए कार्य आदेश निर्गत करे, सामग्री को गुणवत्ता क चयन तक निविदाएं किसी भी समय रर करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।
- ग्राम पंचायत के सचवाई आडर क अनुकूल को सचवाई स्वीकार की जाएगी।
- दरों का उल्लेख करती सचय Tax Included या Excluded का उल्लेख करनी भी आवश्यक है।
- ग्राम पंचायत के समस्त श्रेणीकरण में एक ही मूच्य देय होगा व अयोग्यता समझी को अयोग्यता देय नहीं होंगी।
- इसमें रत 12000Cum, बजरी 1200 cum, पत्थर/बदर स्टोन 1500 cum, कोहर 1500 cum, इंटर 3500 व, बर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित इतना ही सचवाईयत सचय। सामग्री लेने का अंतिम मूच्य/निर्माण विषया को Justification व प्रापित निविदादाता के साथ Negotiation अनुसारा/वचनो किया जाएगा।

प्रधान/सचिव बग्गी तुंगल

आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी और झूठी सरकार कांग्रेस सरकार: रणधीर शर्मा

विवेकानंद वशिष्ठ
हमीरपुर: आज भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर मंडल में प्रेस को संबोधित करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की हर चुनौत में अलग-अलग कि बयान बाजी सामने आती है। उन्होंने कहा की शिमला नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि मैं शिमला का हूँ और कांग्रेस को जिताओ और जब यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमीरपुर में लगे हैं तो वह कह रहे हैं कि मैं हमीरपुर का हूँ। और जब वह देहरा में अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं तो वह कह रहे हैं मैं ही देहरा हूँ।



उन्होंने बताया मुख्यमंत्री मौकाप्रस्त राजनीति कर रहे हैं। वह देहरा के हैं ना वह हमीरपुर के हैं ना ही शिमला के हैं और ना वह प्रदेश के हैं, वह अगर कुछ है तो वह है मित्रों में लगे हैं। उन्होंने बताया कि अगर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो सिर्फ मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने लगभग अपने 30 मित्रों को

किसी को अध्यक्ष किसी को चेयरमैन और किसीको तो कैबिनेट रैंक तक देकर मित्रों की सरकार बना दी। उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ साल में उन्होंने हमीरपुर के लिए ना कोई नई योजना ना कोई नया काम शुरू किया और उल्टा अपनी सरकार में उन्होंने हमीरपुर में चल रही योजनाएं एवं काम बंद करवाने

का काम किया चाहे वो हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होएचाहे वह लबलू का डिग्री कॉलेज होए चाहे जल शक्ति विभाग की शाखा हो सब बंद। यहाँ तक की नादीन विधानसभा की जलशक्ति विभाग की शाखा भी बंद करवा दी। उन्होंने बताया यहाँ तक कि इन्होंने गलोड जो की नादीन विधानसभा में आता है वहाँ का डिग्री कॉलेज भी बंद करवा दिया गया जिससे हमीरपुर विधानसभा में रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ना ही प्रदेश हित और ना ही जनहित में काम कर रही है। उन्होंने बोला अगर हम डेढ़ साल की सरकार की उपलब्धियाँ की समीक्षा

करें तो इससे यही साबित होता है कि यह सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। उन्होंने बताया कि डेढ़ साल के कार्यकाल में इन्होंने ना कोई विकास कार्य शुरू किया और यहाँ तक की अपनी दी गई गारंटियाँ भी पूरी करने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने बताया कि यह चुनाव को देखकर महिलाओं को झूठी घोषणाएं तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसी को उसका लाभ पहुंचाने में नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी गई गारंटी जिसमें उन्होंने पहले साल ही एक लाख और आने वाले सालों में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था जो की एक जुमला बनकर रह गया है।

प्री-मॉनसून ने खोली कांग्रेस सरकार के व्यवस्था परिवर्तन की पोल: शौरी



श्याम कुल्वी कुल्वी: हिमाचल में प्री-मानसून दस्तक दे चुका है और जुलाई माह की शुरुआत के साथ ही मानसून भी अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा। पिछले वर्ष की बरसात के घाव अभी भी अधिकांश जगह पर भर नहीं हैं। बरसात की दस्तक के साथ ही क्षेत्र में पिछले वर्ष की दारुण व्याध फि र सताने लगी है। बंजार क्षेत्र में इस वर्ष के प्री-मानसून ने वर्तमान सरकार की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शौरी ने वर्तमान सरकार के रवैये पर रोष जताते हुए कहा कि पिछली बार की बरसात से सरकार ने कोई सबक न लेकर ज्यों का त्यों रवैया अपनाया हुआ है। पिछली एक साल से सरकार सजवाड़ सडक पर स्थाई पुल तक नहीं लगा पाई,

जिसका खामियाजा आज घाटी की जनता को भरपूर पर्यटन सीजन व फ ल सीजन के समय भुगतना पड़ रहा है। इस पुल निर्माण के लिए स्थानीय जनता के बारंबार निवेदन के बावजूद विभागत अचिंत तक पुल निर्माण के लिए निविदाएं तक आमंत्रित कर पाया है। दो दिन पूर्व ही तीर्थन घाटी की मुख्य सडक पर भी पिछले वर्ष भूस्खलित हुए स्थान पर गाडियां ना चढ़ पाने के कारण एक दिन के लिए ट्रैफि क अवरुद्ध हो गया था। पिछले वर्ष से ख ञेब भूस्खलित चिन्हित स्थानों की विभागत व सरकार ने कोई सुध नहीं ली है और प्री मानसून के साथ हालात काबू से बाहर हो चले हैं। सरकार की जनहित में संवेदनशीलता सरकार के राहत व पुनर्निर्माण कार्यों से साफ झलक रही है।

संक्षिप्त खबरें

श्रीखंड मार्ग पर लंगर आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन

कश्मीर ठाकुर
बिलासपुर: बाबा नाहर सिंह लंगर कमेटी द्वारा सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर चांदपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए कमेटी प्रधान सुरज प्रकाश ने बताया कि समिति इस बार श्री खंड महादेव यात्रा में लंगर लगाएगी, जो 9वां लंगर होगा। उन्होंने बताया कि लंगर का आयोजन 16 से 26 जुलाई होगा। लंगर इस बार भी बागी पुल के बागेश्वरी मंदिर में ही होगा। क्योंकि इसी स्थान से शिव भक्त श्रीखंड आते और जाते हैं। उन्होंने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष से शिव भक्त लंगर कमेटी से जुड़ रहे हैं जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि जो भी दानी सज्जन यदि खाने पीने की सामग्री दान देना चाहें तो वे स्वच्छ से दे सकते हैं। इस बैठक में प्रधान सुरज प्रकाश, उपप्रधान अभिषेक चंदेल, कोषाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर, सचिव प्रशांत भारद्वाज, सलाहकार महेंद्र सिंह चंदेल, रविकांत कोशल, विक्रांत शर्मा, सदस्य गौरव चंदेल, सोम प्रकाश, विक्रम ठाकुर, राज कुमार, कैलाश शर्मा, नरेश ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, कमलेश भारद्वाज व प्रदीप कुमार आदि मौजूद थे।

मित्रों की सरकार में महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण: योगी

राजन पुरी
ऊना: भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा की कांग्रेस राज में मित्रों की सरकार ने प्रदेश में महिलाओं के लिए एक असुरक्षित वातावरण पैदा कर दिया है, जहां महिला प्रतिदिन अपने आप को और असुरक्षित महसूस करती है। सोमवार को जारी ऊना से बयान में कहा कि प्रतिदिन महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश भर में छेड़छाड़, दुकर्म और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं और यह सरकार मौन है। जो सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी, वह खुद ही परिवर्तित हो गई और अब पति, पत्नी और मित्रों की सरकार को सुनना भी बंद हो गया है। प्रदेश की मातृशक्ति प्रदेश सरकार से अपनी सुरक्षा की गृहारण लगा रही है पर प्रदेश सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा की महिला थाना ऊना के तहत युवती ने एक युवक पर दुराचार करने और उसके तीन रिश्तेदारों पर जबरदस्ती करने के आरोप लगाए हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक सरकारी स्कूल में नबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है, मंडी जिला के जोधनगर के लडभडोल क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के मुख्य शिक्षक पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने के संगीन आरोप लगे हैं। शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र के एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 11 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में पुलिस मुख्यालय ने जिला शिमला पुलिस पहुंचा जिसको लेकर अब पुलिस मुख्यालय ने भी जांच बैठाई है। उन्होंने कहा की कांग्रेस की यह सरकार सुपर फ्लॉप है और उनकी फिल्म ज्यादा देर चलने वाली नहीं है।

अस्पताल मंडी में दो अतिरिक्त पर्वी काउंटर खोलने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर कर्वाएँ मुहैया

खेमचंद शास्त्री
मंडी: नागरिक सभा मंडी ने जोनल अस्पताल मंडी में दो अतिरिक्त पर्वी काउंटर खोलने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर मुहैया करवा दिए हैं। यह जानकारी नागरिक सभा के प्रवक्ता नीरज हांडा ने दी। उन्होंने कहा कि नागरिक सभा ने अस्पताल प्रबंधन से दो अलग से पर्वी काउंटर खोलने का आग्रह किया था जिसपर अस्पताल प्रबंधन ने मेनपावर ना होने का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि आज से दो कंप्यूटर ऑपरेटर पर्वी काउंटर में कार्य करने के लिए मुहैया करवा दिए हैं अब आगामी फेसला अस्पताल प्रबंधन ही लेगा की कबसे यह काउंटर शुरू होंगे। बता दें कि पिछले दिनों क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में पर्वी बनाने के लंकर हो रही लेटलतीफि का मुद्दा काफी गमयाया हुआ था जिसको लेकर टोकन सिस्टम शुरू किया गया परंतु समस्या का काम काउंटर होने की वजह से कुछ ज्यादा हल नहीं निकला अब 2 अलग से काउंटर खोले जाएंगे जिसके बाद अस्पताल में पर्वी बनाने के लिए लोगों को ज्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ेगी।

पांटा साहिब में परिवार मिलन कार्यक्रम आयोजित

एसपी जैरथ
नाहन: भारत विकास परिषद पांटा साहिब के दूसरे परिवार मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत संगीत प्रवक्ता ओम प्रकाश शर्मा ने एक के बाद एक भजन गाकर दर्शकों एवं श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया। भारत विकास परिषद के परिवार मिलन कार्यक्रम में प्रांत पूर्व अध्यक्ष आर एस सक्सेना, प्रांत सचिव अशोक टंडन, प्रांत कोषाध्यक्ष नरेंद्र खट्टर, क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सहगल, प्रांत संगठन सचिव नीरज गोयल, प्रांत महिला संयोजिका सत्यम शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती और विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अब सरकार से लड़ेगा आर पार की लड़ाई

खेमचंद शास्त्री
मंडी: हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अब सरकार से आर पार की लड़ाई करने पर उतारू हो गया है। सोमवार को मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष बलरामपुरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों सहित 12 जिलों के पदाधिकारियों और कार्य समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में



सर्वप्रथम प्रत्येक जिलों की रिपोर्टिंग की गई तथा लंबित मांगों को पूरा नहीं करने पर सरकार के खिलाफ रोष भी प्रकट किया गया इस दौरान मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी और कार्यकारी अध्यक्ष बृज लाल

परिस्थितियों में प्रदेश की जनता तथा परिवहन निगम की सेवा में गुजारें हैं आज जीवन के अंतिम प्रभाव में है। यह पेंशनर अपने संवैधानिक हकों के लिए सरकार से पिछले डेढ़ वर्षों से गुहार लगा रहे हैं परंतु सरकार तथा निगम प्रबंधन बहुत ही उदासीन रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर पत्राचार किया है परंतु समस्या का हल नहीं हुआ। अब पेंशनरों के सब्र का बांध टूट चुका है और अब पेंशनर सरकार से आर पार की सीधी लड़ाई लड़ेगा।

डीएवी बरमाणा ने फुटबॉल प्रतियोगिता में डीएवी न्यू शिमला को दी 9.0 से करारी शिकस्त

कश्मीर ठाकुर
बिलासपुर: गुणात्मक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध अडाणी एसीसी डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरमाणा के मेधावी खिलाड़ियों ने कलस्टर लेवल की खेलकूद प्रतियोगिता में अपने हुनर का अद्वितीय प्रदर्शन किया है। यह जानकारी देते हुए डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सुनील गांगट ने बताया कि शिमला के समर हिल मैदान 21 से 23 जून तक चली इस प्रतियोगिता में डीएवी बरमाणा की फुटबाल टीम ने जबदस्त प्रदर्शन करते हुए डीएवी

रहा जबकि मैच रोमांचक मोड़ तक पहुंचा लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में बाजी पलट गई। प्रिंसिपल सुनील गांगटा ने बताया कि खेलों इंडिया के तहत जिलास्तरीय वुशु प्रतियोगिता में मन्नत और मौनिका ने प्रथम स्थान हासिल कर स्कूल व जिला का नाम रोशन किया है।

मरम्मत के कारण 26 जून को बिजली बंद

खेमचंद शास्त्री
सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल-3 मंडी होशियार सिंह ने बताया कि 26 जून को 11 केवी खलियार-पुरानी मंडी उच्च ताप विद्युत लाइन की आवश्यक मरम्मत की जायेगी। मरम्मत के कारण 26 जून को सुबह 10 से सायं 6 बजे तक जवाहर नगर, खलियार, छिपनु, उपायुक्त आवास, पुरानी मंडी, ढगासीधार, पुलिस कॉलोनी, डीएवी स्कूल तथा साथ लगते क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मौसम खराब रहने की स्थिति में कार्य स्थगित या अगले दिन किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

गोलीकांड को लेकर राजनीति चमकाने से बाज आएँ, कानून करेगा अपना काम: परवेश चंदेल



बिलासपुर कश्मीर ठाकुर।
बिलासपुर जागरूक मंच के संयोजक एवं अधिवक्ता परवेश चंदेल ने कहा कि बिलासपुर में घटित गोलीकांड की घटना पर भाजपा व कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों ने इस मुद्दे को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। बल्कि इससे यहां पर अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि गोलीकांड की घटना पर राजनीति करने की अपेक्षा पुलिस व जांच एजेंसियों को जांच करने दें ताकि दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में कड़ी एजेंसियों को जांच करने दें ताकि दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में कड़ी एजेंसियों को जांच करने दें ताकि दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में कड़ी एजेंसियों को जांच करने दें ताकि दोषियों को सजा मिल सके।

गोलीकांड
गोलीकांड की घटना पर भाजपा व कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों ने इस मुद्दे को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है।

दर्पण द्वारा कबीर जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन

कश्मीर ठाकुर
बिलासपुर: ऊना जिले की अग्रणी साहित्यिक संस्था दर्पण द्वारा कबीर जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार रविंद्र कुमार शर्मा थे जबकि अध्यक्षता डॉक्टर देवकला शर्मा ने की। इस अवसर पर एनएफएल नंगल में कार्यरत संजीव कुरालिया वशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मंच का सुंदर संचालन साहित्यकार रामपाल कुटलैहडि 21 ने किया। अतिथियों

की स्वागत करते हुए दर्पण संस्था के अध्यक्ष अशोक कालिया ने बताया कि ऊना जिले के साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। बहुत से नवोदित व स्थापित साहित्यकारों को इस संस्था से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की महासचिव रचना रानी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से की गई। मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार शर्मा ने ऊना जिले के साहित्यकारों को इस संस्था की स्थापना के लिए बधाई

दी तथा उम्मीद जाहिर की कि साहित्य के क्षेत्र में यह संस्था नए आयाम स्थापित करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर देव कला शर्मा ने कहा कि इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि आपस में साहित्यिक चर्चा भी हो और मिलना जुलना भी हो सके। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना बल्कि हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी साहित्यकारों ने भाग लिया। काव्य-गोष्ठी की शुरुआत दीपक शर्मा द्वारा आजकल जंगलों

को जलाए जाने पर प्रस्तुत उनकी रचना प्राप्त की आग किसी ने लगाई थी। इसके अलावा सुधा पराशर, रामपाल शर्मा, रविंद्र शर्मा, डॉ देवकला, रचना रानी, कुंदन लाल भारद्वाज, अशोक कालिया, राजपाल कुटलैहडिया, अनिल कुमार जसवाल ने अपनी रचनाएं सुनाकर मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष अशोक कालिया ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी साहित्यकारों का आभार व्यक्त किया।

आईबी के अरुण कि संदिग्ध मौत पर परिजनों ने की जांच की मांग

संगराय
जोगिंद्रनगर: चंबा जिले के किहार बाजार में आईबी में तैनात जोगिंद्रनगर के एसआई अरुण कुमार कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के चलते उनके परिजनों ने घटना स्थल पर मौजूद अन्य आई बी अधिकारी एवं सभी आरोपियों के नारको टेस्ट सहित घटना स्थल व इसके आसपास जो भी मोबाइल फोन एक्टिव थे उनको भी जांच कि मांग कि है। गौरतलब है कि जून महीने कि 11 तारिक को जोगिंद्रनगर से संबंध रखने वाले आई बी अधिकारी अरुण कुमार का शव चम्बा के किहार बाजार में सडक किनारे पड़ा मिला था। परिजनों का कहना है कि अरुण का शव किहार पुलिस स्टेशन से मात्र 80 मीटर दूर सडक किनारे



पड़ा मिला और सारा इलाका मात्र 100 मीटर के दायरे में सिमटा हुआ और आबादी वाला होने के बावजूद किसी ने अरुण कुमार को बचाने कि कोशिश नहीं कि। हैरानी वाली

बात तो यह है कि रात से सुबह 8.9 बजे तक उनका शव सडक किनारे यू ही पड़ा रहा पर किसी कि उस पर नजर तक नहीं पड़ी। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार ने अपने

मांग

आई बी अधिकारी एवं सभी आरोपियों के नारको टेस्ट सहित घटना स्थल व इसके आसपास जो भी मोबाइल फोन एक्टिव थे
 लगाया। किहार में भी जब लोगो से उनके बारे पूछा गया तो सभी ने उन्हें सदेव सभी की मदद करने वाला ही बताया। ऐसे में उनके साथ ऐसी घटना का घटित होना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि वे एस पी चम्बा से मृतक अरुण कुमार के किसे कि गहनता से जांच करने कि अपील करते हैं ताकि घटना में सल्लित दोषियों को सजा व परिवार को उचित न्याय मिल सके। इस

दरिद्र नारायण कल्याण समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 41 लोगों ने किया रक्तदान

कश्मीर ठाकुर
बिलासपुर: सुभारवी विकासखंड की ग्राम पंचायत पनोह में दरिद्र नारायण कल्याण समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 41 लोगों ने रक्तदान किया। यह जानकारी देते हुए दरिद्र नारायण कल्याण समिति महासचिव जगदीश चंद ने बताया कि पनोह में रक्तदान का आयोजन पहली बार ही किया गया। जिसका लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जिला के एकमात्र पर्वतारोही वह कहलूर एडवेंचर कंपनी के निदेशक 28 वर्षीय पंकज चंदेल ने भी रक्तदान कर युवाओं को रक्तदान करने के

रक्तदान

रक्तदाता विपिन चंदेल भी शिविर में उपस्थित रहे। एक्स सर्विसमैन प्रदीप सिंह ने 15वीं बार रक्तदान किया
 लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर युवक मंडल प्रधान नितेश चंदेल सहित शिविर में 12 युवाओं ने 15वीं बार रक्तदान किया। छह लोगों ने 10वीं बार रक्तदान किया। जिला बिलासपुर के रक्तदाता विपिन चंदेल भी शिविर में उपस्थित रहे। एक्स सर्विसमैन प्रदीप सिंह ने 15

वीं बार रक्तदान किया। रक्तदाताओं में ग्राम पंचायत रोहिन प्रधान देवराज कौंडल, कमल देव, राकेश कुमार, रोहित कुमार, दरिद्र नारायण कल्याण समिति शहरी इकाई अध्यक्ष पत्रकार पवन चंदेल, चैन सिंह, नितेश कुमार, सौरभ शर्मा, मोहित कुमार, विशाल चैहान, सुरेंद्र सिंह, सुधाश ठाकुर, रंजीत सिंह, रितिक शर्मा, नीतीश कुमार, यशपाल भारद्वाज, सुनीता देवी, सौरभ शर्मा, पंकज चंदेल, रवि शर्मा, अंकुश राणा, रोहित विशिष्ट, अनिल शर्मा, मनोज कुमार, चंद्रकांता, वार्ड मंबर एवं स्थानीय लोगों ने शिविर में सहयोग किया।

भाजपा को मिल रहा है हिमाचल के लोगों का आशीर्वाद : जयराम ठाकुर

उपचुनाव में भाजपा जीतेगी सभी सीटें, कांग्रेस को लोगों ने नकारा, कार्टन पर जीएसटी दर घटाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया

चमन शर्मा
शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ने शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों को पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा प्रदेश में हो रहे सभी अप चुनावों को जीतेगी। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 68 में से 61 सीटों पर पिछड़ गई। मुख्यमंत्री और ज्यादातर मंत्री अपना हलका नहीं बचा पाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश में

कोई सरकार इतनी जल्दी अपनी लोकप्रियता खो दी हो। यह सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। किसानों, युवाओं, बागवानों के साथ धोखा किया। डेढ़ साल के कार्यकाल में प्रदेश के विकास को पूरी तरह ठप करके रखा। जनहित के मुद्दों की उपेक्षा की। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान किया। तानाशाही और बदले की भावना से काम किया। नई संस्थानों को खोलने की बजाय पहले से खुले संस्थानों को बंद किया। आज तक प्रदेश में ऐसी सरकार नहीं देखी,



जिसने विकास की और जनपेशाओं की पूर्ण उपेक्षा की। जयराम ठाकुर ने जीएसटी कार्टन पर कार्टन पर जीएसटी घटाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा

कि इससे बागवानों को बहुत राहत मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार हो रहे सभी विधानसभा उपचुनाव को भाजपा जीतेगी। प्रदेश के लोग इस सरकार के कारनामों से ऊब गए हैं और सरकार को सबक सिखाने की तैयारी बैठे हैं। आने वाले उपचुनाव में सरकार की हर तानाशाही एयर विकास विरोधी कार्यों का जवाब अपने वोट से देंगे। सरकार विकास के लिए होती है, अस्पताल स्कूल खोलने के लिए होती है। सड़क, पुल, बनाने के

लिए होती हैं। लेकिन यह सरकार डेढ़ साल के कार्यकाल में सड़कों का मलबा भी नहीं उठा पाई है। आपदा के पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं दे पाई है। अब प्रदेश के लोग फिर से सरकार को सबक सिखायेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तानाशाही के लिए जानी जाती है। कांग्रेस ने इमरजेंसी थोप कर देश के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा है। कल उसी काले अध्याय की बरसी है। उस दौर की यातना के बारे में देश के लोगों को जानना चाहिए।

आज से मोबाइल वेटरनरी यूनिट के पशु चिकित्सक कर रहे हैं पेन डाउन स्ट्राइक

विरोध

वेटरनरी ऑफिसर एवं अन्य स्टाफ को प्राधिकृत कंपनी द्वारा केंद्रीय पद्धति के अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा रहा



पद्धति के अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा रहा अर्थात कम वेतन दिया जा रहा है, जिसका सभी पशु चिकित्सकों ने विरोध किया है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट के पशु चिकित्सकों द्वारा सोमवार 24 जून, 24 से पेन डाउन स्ट्राइक का फैसला लिया गया, जिसमें पशु चिकित्सकों द्वारा काला रुमाल हाथ में बांधकर पूरे हिमाचल के मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स में रोष प्रकट किया गया। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही मोबाइल वेटरनरी स्टाफ को कम वेतन दिया जा रहा है। अगर तुलना की जाए तो अन्य प्रदेशों में इसी सुविधा में स्टाफ को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है।

सिक्वोरिटी गार्ड के 100 पदों के लिए साक्षात्कार

राजन पुरी

ऊना: सिस इंडिया लिमिटेड, आरटीए विलासपुर द्वारा 100 पद सिक्वोरिटी गार्ड के पुरुष वर्ग में भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 25 जून को प्रातः 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना और 26 जून को उप रोजगार कार्यालय अंब में आयोजित होगा। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु सीमा 19 से 40 वर्ष तथा उंचाई 168 सेटीमीटर होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थी को 16,500 से 19,500 रूप्य प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपनी योग्यता प्रमाण पत्र,

छोटा शिमला स्कूल में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस

बैठक

अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस का आयोजन 26 जून को पाटशाला छोटा शिमला स्कूल में किया जाएगा

चमन शर्मा

शिमला: अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में गत दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस के आयोजन हेतु बैठक की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस का आयोजन 26 जून, 2024 को शिमला स्थित राजकीय वरिष्ठ



माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला स्कूल में किया जाएगा, जिसमें नशा मुक्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर छात्रों के बीच जागरूकता लाई जाएगी। इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा

कसुमटी बाजार में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। अभिषेक वर्मा ने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार देश के 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा

रहा है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में से मण्डी, चम्बा, कुल्लू के साथ शिमला का भी चयन किया गया है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस के उपलक्ष्य में सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ऑफलाइन प्रतिज्ञा का आयोजन किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु सेमिनार का आयोजन भी किया

जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मादक द्रव्यों के उपयोग पर जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से नुकड़-नाटक, चित्रकला, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने समस्त उपमण्डल स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस आयोजित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी केवल राम चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला, जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग अधिकारी राकेश शौधा सहित विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अधिकारिण उपस्थित थे।

बाल श्रम करवाने पर जुर्माना व 6 माह का कारावास

बाल श्रम रोकथाम के लिए जिला में 30 जून तक चलेगा जागरूकता अभियान



राजन पुरी

ऊना: बाल श्रम करवाने कानूनी अपराध है। यदि कोई बाल श्रम करवाता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत पचास हजार रूप्य जुर्माना व छह माह का कारावास हो सकता है। यह जानकारी उपायुक्त जितन लाल ने दी। डीसी ने बताया कि बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम एक अभिशाप है तथा इसको खत्म करना हम सब का दायित्व बनता है। उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा चाय की दुकानों, ढाबों, होटलों, कबाड़ की दुकान, ईट भों, कारखानों व शराब की दुकानों व निर्माण कार्य स्थलों पर काम करता हुआ पाया जाता है, तो इसकी

अभियान

बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा

सूचना जिला श्रम अधिकारी सोहन लाल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमलदीप सिंह और संरक्षण अधिकारी अभिमन्यु कपूर को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से बच्चों को बाल से श्रम से मुक्त करवाकर उनका पुनर्वास के साथ-साथ बच्चों को इस सामाजिक अभिशाप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकथाम के लिए आम जनता के साथ-साथ कारोबारियों से भी अनुरोध है कि जिला प्रशासन का सहयोग करें।

जनता से किए वादों को पूरा करें लोक निर्माण मंत्री: अनिल शर्मा

खेमचंद शास्त्री
मंडी: मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लोकसभा चुनाव में सदर की जनता के साथ किए वादों को पूरा करने का आग्रह किया है। कोटली विश्राम गृह में आयोजित भाजपा की बैठक में अनिल शर्मा ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि जैसे ही लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे उसके अगले दिन ही मंडी व जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ें? वाला कुन के तर पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परंतु अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। अनिल शर्मा ने कहा कि बजट के अभाव के कोटली में अस्पताल एआईटीआई व कॉलेज भवन का निर्माण कार्य रूका है।

कबड्डी मुकाबले में अंबोटा को हरा डीएवी सुरंगानी बनी विजेता

राजन पुरी

ऊना: डीएवी पब्लिक स्कूल लटियाणी में चल रही दो दिवसीय नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर खेलों सोमवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह में तहसीलदार बंगाणा अमित कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में अंडर-14 डीएवी सुरंगानी विजेता रहा व डीएवी अंबोटा उपविजेता रहा। वहीं अंडर-17 के मुकाबले में डीएवी लटियाणी विजेता व डीएवी चंबा



उपविजेता रहा। अंडर-19 में डीएवी चंबा विजेता व डीएवी अंबोटा उपविजेता रहा। मुख्यातिथि ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेलें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। विद्यार्थी पहलू के साथ-साथ खेलों में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। खेलों में

शामिल होने से बच्चे टीम वर्क कड़ी मेहनत और आत्म अनुशासन का महत्व सीखते हैं। शुभकामनाएं व बधाई दी। प्रधानाचार्य नसीब ठाकुर ने शारीरिक शिक्षक विजय कुमार व अन्य स्टाफ सदस्यों को खेलों के इस सफलतापूर्वक आयोजन के लिए बधाई दी।

संविधान के भक्षक आज रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं: भारद्वाज कांग्रेस की सत्ता की लालसा 1975 से लेकर अब तक साफ दिखाई देती है

चमन शर्मा

शिमला: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी इतिहास का सबसे बड़ा कला अध्याय रहा जिसको जनता आज तक भुला नहीं पाई है। संविधान के भक्षक आज रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता बरकरार रखने के लिए अर्सेवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है जैसा कि 1975 के आपातकाल के दौरान



देखा गया था। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की रणनीति आज भी हमारे लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरा है जितना 1975 में था। उन्होंने कहा कि आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या जून 25, 1975-मार्च 21, 1977 तक की गई थी। आपातकाल-अत्याचार के 21 महीने

रू 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी का चुनाव प्रष्ट चुनाव प्रथाओं के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। समाचार पत्रों के प्रकाशन को रोकने के लिए दिल्ली के कुछ हिस्सों में 25 जून को सुबह 2 बजे बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों को इंदिरा गांधी

घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इंदिरा ने मंत्रिपरिषद को 26 जून को सुबह ही सूचित किया गया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेईए राजनाथ सिंहए जेपी नारायण जैसे विपक्षी नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया। कुल मिलाकर 1.4 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में 22 मौतें हुईं। यह है कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस संसरण और मीडिया उन्नीड? भी जमाकर किया, अगली डीएवी समाचार पत्रों के प्रकाशन को रोकने के लिए दिल्ली के कुछ हिस्सों में 25 जून को सुबह 2 बजे बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों को इंदिरा गांधी

के चुनाव मामले में संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को कवर करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे संविधान और विधानों पर आपातकाल का प्रभाव काफ़ी नकारात्मक रहा। कानूनों में संशोधन कांग्रेस द्वारा किया गया जिसके अंतर्गत हिरासत मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने से अदालतों को रोकने के लिए मीसा में संशोधन किया गया। संसदीय कार्यवाही प्रकाशन का संरक्षण अधिनियम और प्रेस परिषद अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।

आपदा में किये ऋष्टाचार की अब याद आ रहा है धर्मपुर: रजत

खेमचंद शास्त्री

मंडी: प्रदेश भाजपा मीडिया सहप्रभारी रजत ठाकुर ने स्थानीय विधायक पर राजनैतिक हमला बोलते हुए कहा कि धर्मपुर में राहत के नाम पर बंदरबांट हुई है और ऐसे लोगों को राहत राशि बांट दी है जिनका नुकसान नहीं हुआ है और ऐसे लोग रह गये हैं जिनका नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर विस क्षेत्र में पिछले साल आई आपदा के कष्टने पर लोगों को डींग काट दि गये और ऐसे ऐसे लोगों को लगा दिये जिन्हें इसकी जरूरत तक नहीं थी। एजेन्सीयों द्वारा जांच का डर सता रहा है और इससे विधायक के हाथ पांव



फुल गये हैं। उन्होंने कहा कि पूरा धर्मपुर जानता है कि कैसे विधायक के कष्टने पर लोगों को डींग काट दि गये और ऐसे ऐसे लोगों को लगा दिये जिन्हें इसकी जरूरत तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस पूरे चिट्ठे को जनता व केंद्रीय

जांच एजेन्सीयों के समक्ष रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि धर्मपुर में अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है इसकी जांच होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि अब जांच की आंच अपने उपर आते देख विधायक पंचायतों में आपदा के हुए कार्यों की जांच करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मपुर में आपदा के नाम पर जो भी चोटला हुआ है उसे धर्मपुर की जनता के समक्ष उजागर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उनके पास पूरे तथ्य है कहां कहां बंदरबांट हुई है और अपने लोगों को बैगैर नुकसान के लाभ पहुंचाया है।

न्यूज फ्लैश

कार सवार युवकों पर बाइक व 26 हजार की नकदी छीनने का आरोप

समालखा (कुलदीप सिंह) किवाना रोड पर कार सवार युवकों ने एक बाइक पर सवार दो युवकों से दिन दहाड़े 26 हजार की नकदी व बाइक छीनने का मामला प्रकाश में आया है। समालखा पुलिस ने इस संदर्भ में आईपीसी की धारा 379 ए के तहत मुकदमा नं 337 दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना दो दिन पहले की बताई जा रही है। समालखा शास्त्री कालोनी में स्टील वैल्डिंग की दुकान चलाने वाले प्रवीण वासी गवालडा ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि वह शनिवार की दोपहर करीब दो बजे अपने करीबी कुलदीप वासी राजस्थान कालोनी के साथ मोटरसाइकिल पर अपनी दुकान पर जा रहे थे। जैसे ही वे किवाना रोड पर गैस सिलेंडर कंपनी के पास पहुंचे तो पीछे नामुण्डा गांव की ओर से आ रही एक काले रंग की कार में सवार युवक ने मुझे रूकने का इस्सारा किया। उसने बताया कि जैसे ही उसने बाइक रोकी तो कार से उतर कर आये युवक ने उससे बातचीत करने के बहाने जेब से जबकन 26 हजार रूपए निकाल लिए और उन्हें धमकाते हुए उनसे मोटरसाइकिल भी छीन कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल के पीछे काले रंग वाली कार में दो युवक बैठे थे। पुलिस ने अज्ञात कार सवार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ससुर की हत्या करने वाला दामाद गिरफ्तार

टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनलाल। यूपी बांडी के पास दामाद अपने ससुर की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील को कुरुक्षेत्र के उसके गांव टिकरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। रविवार देर शाम पुलिस ने आरोपी का सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया। आज उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से हत्या से जुड़े असली कारणों के बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। गांव नगला मेघा निवासी मृतक रघुबीर के बेटे श्रवण की पत्नी देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। देवी अपने बच्चों और ससुर के साथ श्रृंगर मिल के सामने किराए के मकान में रहती हैं। देवी का पति एक ठेकेदार के पास हाइड्रॉ ब्लॉकर का काम करता है और घटना के समय वह अपने काम पर गया हुआ था। देवी के ससुर रघुबीर सिंह खेत में काम करने गए हुए थे। देवी की नन्द कोमल की शादी करीब 5 साल पहले कुरुक्षेत्र के टिकरी निवासी सुनील से हुई थी, जिससे उसके दो बच्चे हैं। कोमल ने बाद में चौरा गांव के पंकज सैनी से प्रेम विवाह कर लिया था। 22 जून की रात करीब 8-9 बजे सुनील कुल्हाड़ी लेकर देवी के किराए के घर पहुंचा और कोमल पर अपने बच्चों को गायब करने और उसे बर्बाद करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि कोमल के साथ उसकी बर्बादी में रघुबीर भी शामिल है और उसने रघुबीर को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी रंजिश के चलते सुनील ने रघुबीर की हत्या कर दी। डीआरवी-411 के इंचार्ज ने मधुबन पुलिस को सूचना दी कि मेरठ करनलाल रोड यूपी हरियाणा बोर्ड के पास शेखपुरा गांव में एक साइकिल सवार व्यक्ति की लाश पड़ी है। मृतक के सिर से काफी खून बह रहा था और सिर पर तेजधार हथियार के निशान थे। पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और पूर्व दामाद सुनील पर हत्या का आरोप लगाया। परिवार के आरोपों के बाद से ही पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद रविवार देर शाम को आरोपी सुनील को उसके गांव के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया गया। सीआइए वन के इंचार्ज ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सुनील को उसके गांव के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया है।

शिकायतकर्ता रखें प्रशासन पर विश्वास: डॉ.वीरेन्द्र कुमार दहिया

शिकायतकर्ता निश्चित होकर जाएं, हर हाल में होगा समस्या का समाधान

टीम एक्शन इंडिया पानीपत/कमाल हुसैन हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सैनी के दिशानिर्देश पर हर जिले में लोगों की समस्याओं के निदान को लेकर लगाये जा रहे समाधान शिविर में शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान हो रहा है। सोमवार को जिला सचिवालय सभागार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर पहुंचे। उपायुक्त डॉ.वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि वे हर हाल में लोगों की समस्या का समाधान चाहते हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि



वे समस्या को बांध कर न बैठे उसका तत्काल समाधान करें। लोच से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल लोच कुमारा दहिया ने बताया कि वे हर हाल में लोगों की समस्या का समाधान चाहते हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि

शिविर में उपायुक्त की व्यक्तिगत रूचि का फायदा सीधे तौर पर शिकायतकर्ताओं को मिल रहा है।

उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि वे समय पर सभागार में पहुंचे व इन दो घण्टों में यह करके दिखाए कि जनता को लगे कि शासन व प्रशासन सही मायने में उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। समाधान शिविर में समस्या लेकर पहुंची सीमा ने प्रशासन के सामने नियमानुसार मकान दिलाने की गुहार लगाई। सीमा ने बताया कि वह मूल रूप से सौंठ गांव की

निवासी है व लाल डोरे के तहत जो मकान अलॉट हुए हैं उसमें उन्हें भी मकान अलॉट कर दिया है। उपायुक्त ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुनकर न्याय दिलाने की बात कही। शिविर में लाडली पैशन को लेकर शंकर पाल जो वार्ड 30 राजनगर के निवासी हैं ने प्रशासन से गुहार लगाई की उन्हें लाडली पैशन का लाभ दिया जाए व उनकी बंद लाडली पैशन फिर से शुरू की जाए। उपायुक्त ने इस संदर्भ में समाज कल्याण अधिकारी को शिकायतकर्ता की शिकायत पर गंभीरता पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए।

भारी बहुमत के साथ हरियाणा में बनेगी काँग्रेस सरकार: ओमवीर



टीम एक्शन इंडिया पानीपत/कमाल हुसैन अपने जनसंपर्क अभियान के तहत पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उड़ा रोड स्थित साँई कॉलोनी में नुककड़ सभा में उपस्थित कॉलोनीवासियों सम्बोधित करते हुये वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाजसेवी ओमवीर सिंह पंवार ने कहा आने वाले हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनायेगी।

उन्होंने हरियाणा जनता ने भाजपा को भगाने मन बना चुकी है। कांग्रेस नेता ओमवीर सिंह पंवार ने भाजपा पर हमला बोलते हुये कहा की भाजपा की नींव ही झूठ पर टिकी हुई है। भाजपा के बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ताओ तक झूठ फैलाकर जनता को बगलाने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को करारा जबाब देते काँग्रेस के पक्ष में ज्यादा समर्थन दिया है।

9 सूत्रीय एजेंडे को लेकर 28 को होगी जिला परिषद की सामान्य बैठक

टीम एक्शन इंडिया पानीपत/कमाल हुसैन उपायुक्त डॉ.वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 28 जून को द्वितीय तल पर स्थित सभागार में जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी जिला परिषद सदस्य का उपस्थित रहना अनिवार्य है। बैठक में 9 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि बैठक में 15 वित्त आयोग की नई ग्रांटों के कार्य स्वीकृत कराने एवं सभी कार्यों की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। राज्य वित्त आयोग के सभी कार्यों की प्रगति के बारे एवं स्वीकृत राशि से अधिक अदायगी की घटनाओं उपरान्त स्वीकृत लेने एवं पूर्व में स्वीकृत की गई लाईटों एवं एमएसके की जगह उपलब्ध करवाने बारे चर्चा की जाएगी। उपायुक्त ने बताया जनसंवाद पोर्टल के तहत टेबल 3 से संबंधित प्राप्त मांगों की प्रगति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में ग्राम दर्शन पोर्टल से संबंधित प्राप्त मांगों की प्रगति पर विचार विमर्श

होगा। डीआरडीए के अधीन संचालित अन्य योजना (मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) की प्रगति एवं वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आगामी प्लान में भागीदारी हेतु विचार विमर्श होगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला परिषद कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आधारभूत संरचना बारे भी विचार विमर्श किया जाएगा। कृषि, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईसीडीएस, मार्केटिंग बोर्ड विभाग द्वारा शुरू सुचारू सम्पन्न हुए कार्यों की सूची तथा वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आगामी प्लान में भागीदारी एवं बजट उपलब्धता और संबंधित विभाग मुख्यालय से मांग बारे विचार विमर्श किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्वीकृत एमएसके, इंडोर जिम, ई-लाइब्रेरी की सदन से घंटनों उपरान्त स्वीकृत बारे भी चर्चा होगी। उपायुक्त ने सभी जिला परिषद सदस्य संबंधित विभाग के अधिकारियों व पदस्थ सदस्यों को बैठक में पहुंचने के लिए अनुरोध किया है।

डॉक्टर जितेंद्र कुमार को बने अध्यक्ष

टीम एक्शन इंडिया सोनीपत: यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सोनीपत यूनिट का 3 वर्षीय चुनाव दिनांक 23/06/2024रविवार को संपन्न हुआ संगठन के हरियाणा राज्य की वार्ड एच ए आई ईकाई के पदाधिकारी वी के अग्रवाल जी बतौर ऑब्जर्वर उपस्थित हुए उनके पर्यवेक्षण में सर्वसम्मति से प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र कुमार को सोनीपत इकाई का अध्यक्ष चुना गया जब कि जितेंद्र अग्रवाल को प्रधान चुना गया इसके अलावा इकाई में शैलेंद्र राणा व चिरजी लाल को उपाध्यक्ष व इसके अतिरिक्त कृष्ण चंद्र को कोषाध्यक्ष चुना गया तथा विनोद जी धर्मवीर जी रणवीर जी रविंद्र जी सदीप महलोत्रा व कुलदीप को एग्जीक्यूटिव मेंबर चुना गया चुनाव के दौरान एसडीओ विजय दहिया हिंदू कॉलेज के पूर्व राजनीतिक विभाग के अध्यक्ष डॉ



नरेंद्र कौशिक एडवोकेट राजबीर आतिल पंचायत अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंगला प्रिंसिपल डो सुरेंद्र रोहिला प्रिंसिपल कृष्ण चन्द पूर्व सरपंच सतीश जी पूर्व सरपंच श्री कृष्ण व आजाद मुकोमुपुर समाज सेविका आशा जी सोनीपत इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष सुमित अलक एडवोकेट विनोद शर्मा डा०वेदपाल आर्य तेजवीर मलिक बलविंदर

मलिक अनमोल महेन्द आदि भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेएसोसियेशन के चैयरमैन बने डा० जितेंद्र कुमार ने बताया यह एक अन्ताराष्ट्रीय संस्था है व पूरे विश्व में रहने की सुविधा प्रदान करती है यूथ के बीच साहसिक गतिविधियों जैसे ट्रेकिंग कैम्प साईकिल रैली आदि आयोजित करने का काम करती है इसके

अलावा युवाओं को राष्ट्र निर्माण व उनकी भूमिका के प्रति जागरूक किया जाता है नवगठित टीम ने इस दौरान सकल्प लिया कि वे युवाओं के वर्तमान व भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कारगर कदम उठायेगे चुनाव सम्पन्न होने के बाद पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी व मिठाई खिलाकर मुह भी मीठा किया।

समाधान शिविर में 104 शिकायतों पर हुई सुनवाई

उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने कहा - रोजाना आने वाली शिकायतों पर लिया जा रहा है संज्ञान

टीम एक्शन इंडिया सोनीपत: राज्य सरकार के निदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिला एवं उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर लगाकर लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए ह्रसमाधान शिविररू के रूप में यह पहल की है। रोजाना की भांति उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ह्रसमाधान शिविररू



लगाकर आमजन की समस्याएं 104 शिकायतों पर सुनवाई हुई व सुनीं। समाधान शिविर में करीब अधिकारियों को तत्काल समाधान

करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करते हुए उन्हें राहत पहुंचाएं। शिविर में आम नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली, पानी तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित 104 शिकायतों का निवारण किया गया। उपायुक्त ने कहा कि नागरिकों की

समस्याओं के समाधान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है और अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लोगों की इन शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। इसलिए सभी नागरिक अपने गांवों या वार्ड में लगे इन कैम्पों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य करवाएं। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त विश्राम मीणा, डीसीपी वेस्ट नरेंद्र सिंह, एसडीएम सोनीपत अमित कुमार, सीटीएम पूजा कुमारी, डीडीपीओ जितेंद्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

9 सूत्रीय एजेंडे को लेकर 28 जून को होगी जिला परिषद की सामान्य बैठक

पानीपत/कमाल हुसैन उपायुक्त डॉ.वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 28 जून को द्वितीय तल पर स्थित सभागार में जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी जिला परिषद सदस्य का उपस्थित रहना अनिवार्य है। बैठक में 9 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि बैठक में 15 वित्त आयोग की नई ग्रांटों के कार्य स्वीकृत कराने एवं सभी कार्यों की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। राज्य वित्त आयोग के सभी कार्यों की प्रगति के बारे एवं स्वीकृत राशि से अधिक अदायगी की घटनाओं उपरान्त स्वीकृत लेने एवं पूर्व में स्वीकृत की गई लाईटों एवं एमएसके की जगह उपलब्ध करवाने बारे चर्चा की जाएगी। उपायुक्त ने बताया जनसंवाद पोर्टल के तहत टेबल 3 से संबंधित प्राप्त मांगों की प्रगति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में ग्राम दर्शन पोर्टल से संबंधित प्राप्त मांगों की प्रगति पर विचार विमर्श होगा। डीआरडीए के अधीन संचालित अन्य योजना (मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) की प्रगति एवं वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आगामी प्लान में भागीदारी हेतु विचार विमर्श होगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला परिषद कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आधारभूत संरचना बारे भी विचार विमर्श किया जाएगा। कृषि, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईसीडीएस, मार्केटिंग बोर्ड विभाग द्वारा शुरू सुचारू सम्पन्न हुए कार्यों की सूची तथा वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आगामी प्लान में भागीदारी एवं बजट उपलब्धता और संबंधित विभाग मुख्यालय से मांग बारे विचार विमर्श किया जाएगा।

ऊंचाई से गिरने पर यूपी के युवक की मौत पानीपत में ऑक्सीजन पार्क किया स्थापित

टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनलाल। जिले के घीड़ गांव में पांच फीट की ऊंचाई से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ऊपर से गिरने के बाद युवक लोहे के ड्रम पर जा गिरा। हादसा इतना दर्दनाक था कि मजदूर की आंखें फूट गईं। उसे गंभीर हालत में करनलाल के कल्याण चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के

बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान यूपी के लखनौती निवासी 25 वर्षीय कासिम के रूप में हुई है। कासिम यूपी के लखनौती गांव से रोजाना करनलाल के घीड़ के पास काम करने आता था। मृतक के दोस्त ने बताया है कि कासिम को दौरे पड़ते थे। ऐसा पहले भी हो

चुका है। वह बांस के स्टैंड खड़ा होकर काम कर रहा था। पैड़ पांच फुट की हाइट पर बंधी हुई थी। वह सीमेंट मसाले के तसले पकड़ रहा था। अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह नीचे आ गिरा। नीचे ड्रम रखा हुआ था, जिससे उसका सिर जा टकराया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना के बाद पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

टीम एक्शन इंडिया पानीपत/कमाल हुसैन प्रधानमंत्री प्रोफेसर दलजीत कुमार ने अपनी स्वर्गीय माता रोशनी देवी की 14 वीं पुण्यतिथि पर तहसील कैम्प थाना पानीपत में ऑक्सीजन पार्क स्थापित करके दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय पानीपत में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत ग्रीनमैन दलजीत कुमार ने बताया कि एस पी पानीपत अजीत सिंह शोखावत के



मार्गदर्शन में और तहसील कैम्प पानीपत के इन्स्पेक्टर विजय और सिटी थाना पानीपत के इन्स्पेक्टर राजबीर सिंह व गौरव लीखा के सहयोग से माता रोशनी देवी की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर ऑक्सीजन बाग लगाने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोफेसर दलजीत कुमार ने बताया कि आज बरगद, पीपल, सेब, जामुन, आम, आड़ू,

शहतूत, चीकू,केला, अमरूद, माल्टा, निम्बू, मौसमी, बबुगोस, नाशपाती, सहजन आदि के 28 पौधे रोपित किए गए और 50 से अधिक हर्बल और फलदार पौधे रोपित किए गए। प्रोफेसर दलजीत कुमार ने कहा कि हमे अपने को साथ पौधे : अपने की याद में पौधे जरूर लगाने चाहिए जिससे इंसानियत का भला है। प्रोफेसर दलजीत कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से मिलकर " ग्रीन-पानीपत : क्लीन पानीपत " बनाने का रहेगा

नगर परिषद बनाने की फाइल नगरपालिका में अटकी नगला मेघा में व्यक्ति ने निगला जहरीला पदार्थ, मौत

समालखा (कुलदीप सिंह) समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने समाधान शिविर के इंचार्ज एवं एसडीएम को मांग पत्र दे कर समालखा नगरपालिका को नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव सरकार को भिजवाने व सभी 23 अवैध कालोनियों को अप्रुव कराने की फाइल तत्काल सरकार को भिजवाने की मांग की है। एसडीएम समालखा की अनुपस्थिति में समाधान शिविर की अध्यक्षता कर रहे पानीपत के एसडीएम मंदिप सिंह ने शिविर में मौजूद पालिका सचिव मुकेश कुमार को तत्काल सभी अवैध कालोनियों का केस व नगर परिषद बनाने बारे पालिका प्रस्ताव सरकार को भिजवाने के निर्देश दिये।



संघर्ष मोर्चा संयोजक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि शहर की 23 अवैध कालोनियों को अप्रुव कराने की फाइल पालिका अधिकारी दबा कर बैठे हैं, सरकार को नहीं भेज रहे ,जबकि सरकार ने इन्हें पास करने के लिए

जबकि दूसरे शहरों में अवैध कालोनियां अप्रुव हो रही हैं लेकिन समालखा में पिछले दस वर्षों से एक भी कालोनी पास नहीं हुई,क्योंकि पालिका अधिकारियों ने आज तक इनका केस ही सरकार को भेजा। कपूर ने बताया कि नगरपालिका अधिकारियों ने आज तक शहर की अवैध कालोनियों का सर्वे तक नहीं करवाया है। पालिका अधिकारी तो सिर्फ टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी द्वारा कुछ अवैध कालोनियों के करवाए गये सर्वे पर ही कार्यालय में बैठे बैठे खानापूत कर रहे हैं। असलियत में जमीनी स्तर पर इन्हें पता ही नहीं कि यहाँ कुल कितनी अवैध कालोनियां हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। इस मुद्दे पर न ही किसी

विधायक,सांसद या पालिका चैयरमैन ने कभी कोई सुध ली है। हरियाणा सरकार ने गत 12 फरवरी को डीसी व पालिका सचिव को पत्र भेज कर नगर परिषद बनाने के लिए पालिका हॉउस का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये थे। लेकिन नगरपालिका ने यह जरूरी प्रस्ताव चार महीने बीत जाने पर भी नहीं भेजा,पालिका प्रस्ताव जाते ही यहाँ नगर परिषद बन जायगी। आरोप लगाया कि नगरपालिका शहर की अवैध कालोनियों को अप्रुव कराने का केस भी सरकार को नहीं भेज रही। जिसका खामियाजा इन 23अवैध कालोनियों की जनता नाकसीज जीवन जी कर बुगुी तरह भुगत रही है और भाजपा सरकार को दिन रात कोस रही है।

टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनलाल। जिले के नगला मेघा गांव में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के साले की एक माह पहले ही मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान था। जहरीला पदार्थ खाने के बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के साले जसमेर ने बताया कि मैं डिप्रेंडो गांव का रहने वाला हूँ और मेरा भाई कृष्ण कुमार कर्ण मिल्क फूड कंपनी में काम करता था। महावीर की बहन की शादी उसके बड़े भाई कृष्ण कुमार से हुई थी। एक महीने पहले फूड कंपनी में

दिहाड़ी मजदूरी करता था। कल 23 जून को 38 वर्षीय महावीर ने घर पर ही जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसकी हालत बिगड़ गयी तो उसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसका उपचार किया, लेकिन शाम को उसकी हालत और बिगड़ गई और देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के साले जसमेर ने बताया कि मैं डिप्रेंडो गांव का रहने वाला हूँ और मेरा भाई कृष्ण कुमार कर्ण मिल्क फूड कंपनी में काम करता था। महावीर की बहन की शादी उसके बड़े भाई कृष्ण कुमार से हुई थी। एक महीने पहले फूड कंपनी में

हादसा हुआ था, जिसमें कृष्ण जल गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कृष्ण की मौत से महावीर को गहरा सदमा भला और वह मानसिक रूप से परेशान हो गया। कंपनी वालों ने आश्वासन दिया था कि वह मुआवजा देंगे, लेकिन बाद में कंपनी ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे महावीर और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। महावीर किसी से बात भी नहीं करता था। किसी को नहीं पता कि महावीर के दिमाग में क्या आया और उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।



संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नगण्य

रूस यूक्रेन युद्ध के सैकड़ों दिन गुजर जाने के बाद अबर्बो रूपए के माल की हानि और लाखों लोग बेघर तथा जान गवाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपथ्य में अपने अस्तित्व की तलाश में घूमता नजर आ रहा है। अमेरिका तथा यूरोपीय देश रूस के खिलाफ खुलकर धन तथा सामरिक अस्त्र शस्त्र लगातार यूक्रेन को प्रदान कर रहे हैं दूसरी तरफ इन्हीं बाहुबली देशों के इशारे पर यूएनओ रूस पर नाना प्रकार के प्रतिबंध लगा चुका है। 20 और 30 की कई बैठके हो चुकी है और लगातार यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ना तो रूस यूक्रेन युद्ध और नाही इजरायल लेस्टाइन युद्ध में कुछ कारगर भूमिका निभा सका है। इसराइल लगातार हमाम और फिलिस्तीन पर आक्रमण कर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मौन उसके अस्तित्व पर संदेह पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अब अस्तित्वहीन हो चुका है। अभी भी अमेरिका सहित नेटो देश यू.एन.ओ.को अपने स्वार्थ के हिसाब से संचालित करते आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध रोकने यू.एन.ओ. रूस के सामने गिड़गिड़ा कर अपील करता रहा, पर रूस के कान में जूं तक नहीं रेंगी उल्टा हमले और तेज कर दिए यू.एन.ओ. की हामियत प्रायः न्यून होती जा रही है। वैश्विक शांति सद्भावना और सीहार्द के लिए वैश्विक देशों ने एक मत हो कर परमाणु अप्रसार संधि पर 1970 में लगभग विश्व के सारे देशों ने अपनी मुहर लगाई थी। विश्व के 191 देशों ने अपनी सहमति जताकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे यह इस परमाणु संधि का मूल आदर्श यही था कि मानव जाति के लिए हर संभव परमाणु हथियारों और इस खतरनाक तकनीक के प्रचार प्रसार को रोकना था। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं थे वह भी इस संधि में शामिल हो गए थे पर परमाणु हथियार संपन्न देश भी इस बात से सहमत हैं कि परमाणु हथियार बनाने एवं इसके उपयोग पर प्राभावी नियंत्रण लगे। द्वितीय युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु, परमाणु बमों का भयानक परिणाम जपान में पूरी दुनिया के लोग देख चुके थे, अनुभव कर चुके थे। जपान इसके दुष्परिणाम अभी तक झेल रहा है। परमाणु हथियारों का उपयोग मानव जाति के खिलाफ ना किया जाए इसके लिए परमाणु अप्रसार संधि की कवायत यूनाइटेड नेशंस ऑगिनाइजेशन की गई थी। अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्सकी से भेंट कर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की मध्यस्थता करने रूस के दौरे पर जाएंगे, पर संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना के देश में किसका सफल होगा यह तो वक्त ही बताएगा। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अनेक देश परमाणु हथियार संपन्न बन चुके हैं। परमाणु तथा हाइड्रोजन बमों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि इन संधियों को युद्ध से बचने और शांति स्थापित करने के प्रयास के लिए वैश्विक स्तर पर निर्मित किया गया था। अब रूस तथा यूक्रेन युद्ध में उसकी कहीं भी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती, सभी संस्थाएँ निष्क्रिय प्रतीत होती हैं। कमजोर और छोटे देश यूक्रेन पर पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से रूस लगातार आक्रमण कर उसके शहरों को तबाह कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विश्व के सारे देश हाथ में हाथ धरे बैठे इस भीषण युद्ध को सिर्फ देख रहे हैं। इसे रोकने की किसी ने पहल तक नहीं की है।



कविता

अंधविश्वास को दी खूब डंके की चोट,

लोगों से निकाला जातिवाद का खोट।

समाज में बही कुछ समानता की समीर ,

सदा नाम रहेगा दुनिया में तेरा कवि कबीर।

सबद,साखीऔर साथ में तर्कपूर्ण रमैणी,

इनमें की बयां उस समय की कहानी।

'काशी में जो भरता,जरूर स्वर्ग जाता,

मगहर में जो भरता वो नरक में जाता -

भारत में अकेले इस धारणा को तोड़ने

वाले,

काशी छोड़ मगहर में ही जाकर मरने वाले ।

घट-घट में ही बसा हुआ है वो राम ,

फिर पत्थरों में ढूंढने का क्या है काम ?

जो अपने भीतर उतरा पूरे मनोयोग से,

मिल ही लिया वह 'उससे'युक्ति योग से।

ऐसे सज्जन कवि को हमारा हार्दिक सलाम,

जितना लिखे कम है उनके लिए कलाम।

डा. जय किशन

बच्चों की पहुंच तक आ चुका नशे का जहर



राजेश माहेश्वरी

“बच्चों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, बच्चों को समय देना सीखें, बच्चों के सामने बड़ों का व्यवहार आदर्शात्मक होना चाहिए, बच्चे अपनी दिनचर्या कैसे बिताते हैं, किससे मिलते हैं, उनकी मित्रमंडली कैसी है, बच्चे बाहर खर्चा कहां करते हैं, यह सब अभिभावकों को पता होना चाहिए। आधुनिकता विचारों में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं, इसलिए बच्चों को दुनियादारी, व्यवहार ज्ञान, अच्छे-बुरे की समझ अभिभावकों द्वारा मिलनी ही चाहिए। आज के समय में संस्कार, सत्य, नीतिमत्ता तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ अभिभावकों के लिए भी ये बेहद आवश्यक है। नशा छोड़ें, जागरूक रहें, बच्चों को देश का उज्वल भविष्य बनने के लिए उन्हें बेहतर और पोषक वातावरण दें”

आज के आधुनिक युग में हम कहने को उन्नत हो रहे हैं, लेकिन संस्कार, जिम्मेदारी, आदरभाव, अपनापन, प्रेम, करुणा, दया भाव, नैतिकता जैसे शब्दों का कोई मोल नजर नहीं आता। समाज में लगातार अराजकता फैल रही है जिससे, सामाजिक समस्याएँ और अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके प्रमुख कारणों में से एक नशाखोरी है। एक समय था जब हम हशीश, गांजा, कोकीन जैसे खतरनाक नशीले जहर के बारे में केवल सुनते थे और फिल्मों में देखते थे, लेकिन अब ये नशा हमारे अपने लोगों तक भी पहुंच गया है और स्कूल-कॉलेज जाने वाले किशोर इस नशे के आदी होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन मादक पदार्थों की तस्करी की खबरें पढ़ने-सुनने को मिलती है, युवावर्ग तेजी से नशे के प्रति आकर्षित हो रहा है। हुक्का बार, पब, पार्टी का चलन खूब बढ़ रहा है। इस समस्या में सबसे बड़ी गलती अभिभावकों की नजर आती है, जो आज की युवापीढ़ी को योग्य संस्कार और बेहतर परवरिश देने में नाकाम हो रही है। अक्सर सड़क किनारे, फुटपाथ पर, निर्जन स्थलों पर, खंडहरनुमा मकानों या गलियारों बस्तियों में बच्चों से लेकर बड़े तक नशा करते हुए देखते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी घातक रसायन, पेट्रोल, सैनिटाइजर, व्हाइटर, खांसी की दवा, दर्द निवारक, गॉद, पेंट, सैसोलोन सुंघकर नशा करते हैं, बहुत बार, अभिभावक बच्चों की ऐसी हरकतों को देखकर भी भीतर अंदज करना, केवल मही संसाधन का नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि घातक है। देश में 10-17 वर्ष की आयु के लगभग 15.8 मिलियन बच्चे मादक पदार्थों के आदी हैं। वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो कुल अर्थव्यवस्था का 30 प्रतिशत है। हर साल शराब ही दुनिया भर में 2.3 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार है। बचपन से महेगी शौक, जिद, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का चलन, आधुनिकता की जगमगाहट, झूठा दिखावा और फिल्मों, सोशल मीडिया का बच्चों के दिमाग पर बुरे असर ने नशे के प्रति किशोरों के आकर्षण को तीव्र कर जीवन में शरारत फैला दिया है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में एक करोड़पति बिल्टर के नाबालिग नशेड़ी लड़के ने अपनी पोर्श कार से दो अभियांत्रिकी युवाओं को कुचल दिया था, फिर भी बड़े रसूखवाले इस बिल्टर पिता ने अपने अपराधी लड़के को बचाने के लिए भरसक प्रयास किये, चार महीने पहले महाराष्ट्र के नागपुर में बड़े उद्योगपति संभ्रंत परिवार की बहू ने नशे की हालत में अपनी कार से आधी रात में दो युवा इंजीनियरों को मौत के घाट उतार



दिया, अब फिर नागपुर में रात में इंजीनियरिंग के छात्र ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचल दिया। आजकल के अभिभावक ही अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं, रोज नशे से संबंधित अपराधों की खबरें पढ़ने-सुनने को मिलती है, कोई युवा नशे के लिए अपने अभिभावकों को मौत के घाट उतार देते हैं, तो कोई बच्चे नशे की हालत में क्राइम कर रहे हैं। अभिभावकों का लगातार व्यस्त रहना, बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान न देना, बच्चों पर नियंत्रण न होना, बच्चों की गलतियों को हमेशा नजरअंदाज करना, केवल मही संसाधन का नैतिक सुझाव देना, अति लाड प्यार कर बच्चों की हर ज़िद पूरी करना ही अभिभावकों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, अपितु बच्चों को समय देना, उनके कार्यक्रमों में सहभागी होना, बच्चों का दोस्त बनकर जीना अहम जिम्मेदारी है।

हर साल 26 जून को नशे के प्रति जागरूकता और मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए नशीली दवाओं के ड्रुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्वभर में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सबूत स्पष्ट हैं: रोकथाम में निवेश करें। यह है। आज विश्व में सबसे बड़ा युवाओं का देश भारत है, युवाओं को संभालकर योग्य दिशा में अग्रसर करना ही देश का विकास है। मीडिया के माध्यम से हमेशा यह पता चलता है कि नशीली दवाओं की तस्करी के लिए किशोरों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे गलत काम करने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है, ताकि स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी नशीली दवाओं के जहर के संपर्क में आसानी से आ जाएं। जिन होनहार

युवाओं के भरोसे देश का उज्वल भविष्य टिका है वो नशे में अपना वर्तमान और सुनहरा फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचल दिया। आजकल के अभिभावक ही अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं, रोज नशे से संबंधित अपराधों की खबरें पढ़ने-सुनने को मिलती है, कोई युवा नशे के लिए अपने अभिभावकों को मौत के घाट उतार देते हैं, तो कोई बच्चे नशे की हालत में क्राइम कर रहे हैं। अभिभावकों का लगातार व्यस्त रहना, बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान न देना, बच्चों पर नियंत्रण न होना, बच्चों की गलतियों को हमेशा नजरअंदाज करना, केवल मही संसाधन का नैतिक सुझाव देना, अति लाड प्यार कर बच्चों की हर ज़िद पूरी करना ही अभिभावकों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, अपितु बच्चों को समय देना, उनके कार्यक्रमों में सहभागी होना, बच्चों का दोस्त बनकर जीना अहम जिम्मेदारी है।

हर साल 26 जून को नशे के प्रति जागरूकता और मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए नशीली दवाओं के ड्रुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्वभर में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सबूत स्पष्ट हैं: रोकथाम में निवेश करें। यह है। आज विश्व में सबसे बड़ा युवाओं का देश भारत है, युवाओं को संभालकर योग्य दिशा में अग्रसर करना ही देश का विकास है। मीडिया के माध्यम से हमेशा यह पता चलता है कि नशीली दवाओं की तस्करी के लिए किशोरों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे गलत काम करने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है, ताकि स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी नशीली दवाओं के जहर के संपर्क में आसानी से आ जाएं। जिन होनहार

वार्षिक प्रवाह को दर्शाते हैं। भारतीय सेना द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जम्मू कश्मीर में लगभग 40% युवा किसी न किसी रूप में नशे की लत से पीड़ित हैं, जो 2008 में 5% से कम था। भारत में पिछले एक दशक में नशीली दवाओं के ड्रुपयोग और शराब की लत के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2023 अनुसार, वैश्विक स्तर पर, 2021 में 296 मिलियन से अधिक लोगों ने नशीली दवाओं का उपयोग किया, जो पिछले दशक की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि है। इस बीच, नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई है, जो 10 वर्षों में 45 प्रतिशत की वृद्धि है। अफ्रीका में, उपचारधीन 70 प्रतिशत लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। विश्व स्तर के साथ भारत देश में नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नशा इंसान को जिन्दा लाश बना कर रख देता है और बुढ़ाई, अपराध, नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है। नशे के कारण आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक क्षति होती है। आज के अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, अपने बच्चे अपनी जिम्मेदारी है, अभिभावकों का व्यस्तता का बहाना बच्चों के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बच्चों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, बच्चों को समय देना सीखें, बच्चों के सामने बड़ों का व्यवहार आदर्शात्मक होना चाहिए,

बच्चे अपनी दिनचर्या कैसे बिताते हैं, किससे मिलते हैं, उनकी मित्रमंडली कैसी है, यह सब अभिभावकों को पता होना चाहिए। आधुनिकता विचारों में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं, इसलिए बच्चों को दुनियादारी, व्यवहार ज्ञान, अच्छे-बुरे की समझ अभिभावकों द्वारा मिलनी ही चाहिए। आज के समय में संस्कार, सत्य, नीतिमत्ता तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ अभिभावकों के लिए भी ये बेहद आवश्यक है। नशा छोड़ें, जागरूक रहें, बच्चों को देश का उज्वल भविष्य बनने के लिए उन्हें बेहतर और पोषक वातावरण दें। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर संपठन, सरकार, स्वयंसेवी संस्थान नशामुक्ति और मादक पदार्थों के तस्करी के विरुद्ध कार्य करते हैं। भारत सरकार के "नशा मुक्त भारत अभियान" के तहत राष्ट्रीय टोल फ्री नशा भुक्ति हेल्पलाइन 14446 पर संपर्क कर सकते हैं।



विचार

परीक्षा के प्रश्नपत्रों का लीक

नीट परीक्षा के प्रश्नपत्रों का लीक होना इस देश के लिए शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस मसले पर सियासत करने वाले दौट हैं और सरकार असहाय। हालांकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के साथ ही तमाम जांच एजेंसियों के पाले में है, फिर भी इस मसले पर देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कश्मीर में योगासन लगा रहे हैं, सैलफियां ले रहे हैं। वे नीट भ्रष्टाचार के गढ़ बिहार में नालंदा विश्व विद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी कर आये, लेकिन नीट पर वे कुछ नहीं बोल रहे। वे मणिपुर के मामले में भी कहीं बोलेंगे? उन्हें तो हीआ खड़ा करना आता है। मंगलसूर लूटने का हौवा, भैंस खोले जाने का हौवा, मुसलमानों का हौवा। गनीमत है की उनकी सरकार के मानव संसाधन मंत्री धर्मद प्रधान जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वे क्या बोलते हैं। किसी की समझ में नहीं आता। नीट परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के लीक होने के मामले में किसी के पास क्या कुछ नहीं है करने के लिए। मेरे पास भी नहीं, लेकिन एक नयी बात ये है की देश में जितनी भी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक होते हैं वे अक्सर उन राज्यों में हो रहे हैं जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं। बिहार के दुस्साहस को देश वैसे ही परनाम करता हूँ। यहां चारा घोटाले से लेकर नीट घोटाला तक करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इससे पहले बाबा आदित्यनाथ का उतर प्रदेश भी पेपर लीक के मामले में विशेष कौशल हासिल कर चुका है।

हमारा मध्यप्रदेश तो इस मामले में सबसे आगे है। यहां डाक्टर से लेकर पटवारी परीक्षा तक के पेपर लीक होते हैं और परीक्षाओं तक में घोटाले हो जाते हैं, लेकिन कोई इंडी या सीबीआई नहीं जांच करने नहीं आती दुर्भाग्य ये कि इस मामले में कोई भी भागवत सरकार को बोलने के लिए नहीं कहता। कोई इंडिया कुमार घोटालों कि पालनहार सरकारों को उपदेश नहीं देता। नीट परीक्षा के प्रश्न -पत्र ही या किसी अन्य परीक्षा के उन्हें लीक करने का एक सुगठित व्यवसाय देश के अनेक राज्यों में चल रहा है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की सुचिता की कोई गारंटी इस देश में कोई नहीं दे सकता। आम चुनाव के वक्त भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तरह-तरह की गारंटियां जनता के सामने रखीं थीं, किन्तु किसी ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र लीक होने की गारंटी नहीं दी। कोई दे भी नहीं सकता। क्योंकि इस मामले में अधिकांश राजनीतिक दल और उनके नेता,कार्यकर्ता और नौकरशाही शामिल है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के प्रमुख तेजस्वी यादव के निज सचिव तक का इस घोटाले में शामिल होना इस बात का संकेत देता है कि इस मामले में कोई भी दूध का घुला नहीं है। दरअसल देश की राजनीति के गर्भ से ही ये भ्रष्टाचार जन्म लेता है और फिर पूरे समाज में फैल जाता है। केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें इस तरह के अनैतिक कारोबार को रोकने के लिए रोज नए

कानून बनाती है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिलता। हम यानि हमारा समाज,हमारी राजनीति,हमारी कार्यापालिका,हमारी विधायिका,हमारी न्यायपालिका में सुचिता सिर से नदारद है। ठीक वैसे ही जैसे की गे के सिर से सींग गायब हो गए हैं। आप इस देश की संसद में या विधान सभाओं में लाख कानून बना लीजिये लेकिन जब तक समाज की रगों में बहते भ्रष्टाचार के काले खून को डायलिसिस कर बाहर नहीं निकालते, कुछ होने वाला नहीं है। पिछले दो दशक में देश के हर हिस्से में केवल शिक्षा के क्षेत्र में इतने घोटाले हुए हैं कि उनकी गिनती तक करना मुश्किल है। हम एक प्रश्न-पत्र लीक-नायु [आक्सीजन] के बिना जीवित रह सकते हैं लेकिन घोटालों के बिना नहीं। शिक्षा जगत में होने वाले इन घोटालों की मार देश की उस युवा पीढ़ी को झेलना पड़ रही है जिसे हम और आप देश का भविष्य कहते हैं।इस घोटाले को खाद -पानी वे माध्यम वर्गीय लोग देते हैं जो भ्रष्टाचार के जरिये होने वाली कमाई से लाखों रुपए देकर प्रश्न-पत्र लीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चूँकि सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं इसलिए कोई,किसी को दोषी नहीं मानता दुर्भाग्य ही की बात ये है कि इस तरह के घोटालों के तार उस गुजरते से जुड़े निकलते हैं जो महात्मा गाँधी का गुजरता है, जो सरदार पटेल का गुजरता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दस मोदी का गुजरता है।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार सहितमान जी (मैंहदीपूर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धार्पूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: HPHIN / 2012 / 48072

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक रवि भारद्वाज, एक्शन इंडिया कार्यालय कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना हिमाचल प्रदेश-174303 न अर्थ प्रकाश प्रेस, अर्थ प्रकाश भवन, सेक्टर-29डी, चंडीगढ़ से छपाकार प्रकाशित किया। "एक्शन इंडिया" में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक या प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश ही होगा।

समूह संपादक: रवि भारद्वाज (999889 104)

स्थानीय संपादक: पंकज शर्मा (70 1822 1146)

ई-मेल : actionindia@shimla@gmail.com

actionindia@shimla@gmail.com

एक्शन इंडिया हिमाला कार्यालय: सखदेवा निवास, डेजी बैंक इस्टेट,

नजदीक जोधा निवास, लोअर जाट्य, धिमला, 171001

एक्शन इंडिया ऊना कार्यालय: कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने,

ऊना, हिमाचल प्रदेश-174303

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय करने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर ले। समाचार पत्र प्रकाशक किसी भी विज्ञापन से गुप्तता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या सत्यता नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।



चिंतन

यूटर्न ही यूटर्न!

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा हमें लाख समझाया कि खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धो लिया करो। और हम थे कि इन बातों को हवा करने में अपनी शान समझते थे। हम उसे विज्ञापन कम टाइमपास ज्यादा मानते थे। रिमोट हाथ में होता तो फट से चैनल का ट्यूटुआ दबा देते और कहते - यह फालतू की बक-बक सुनने की फुरसत किस है? क्या हमें नहीं पता की हाथ की सफाई क्या होती है? इस देश में लोग कुछ सीखे न सीखे हाथ की सफाई जरूर सीखते हैं। इससे स्वच्छता और संपन्नता दोनों बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी विज्ञापन हाथ की सफाई के बारे में सविधान जैसी क्लिप भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा तो सरल है, लेकिन बुद्धि का घड़ा औंधे रखा

हो तो कोई बात दिमाग में कैसे घुसे? सो हमने भी इसे समझने की जहमत नहीं की। हमारे हाथ की सफाई के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपया फूक दिया। फिर उन्हीं लाखों-करोड़ों की उगाही के लिए कभी हमसे धूम शलाका फूकवा दिया। तो कभी मुँह में खजांची बना दाने-दाने में केसर लिखाने लगा दिया। हिसाब हिसाब हमने अपने घर खुश और हम अपने घर। कहते हैं सबका दिन आता है। सो हाथ की सफाई वाला दिन भी आया। आया तो आया ऐसा आया कि हाथ की सफाई से लेकर मुँह, नाक, आँख या यूँ कहें कि पूरे बदन को साबुन से धोने की नौबत आ पड़ी। ऊपर से मुँह भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा तो सरल है, लेकिन बुद्धि का घड़ा औंधे रखा

चला। सबका अंत आता है। मास्क का भी आया। जब कोई वस्तु अति होने लगती है, त उसका पतन भी अति करने वाला ही करता है। कुछ लोग जिंदगी को तपाकर कुदून बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं तो कुछ महाशय खुद लोगों के क्रदन से पांपुलर हो गए। माना कि हाथ की सफाई वाले विज्ञापन का हमने ठीक से पालन नहीं किया। इसका मतलब यह तो नहीं कि हाथ की सफाई के साथ-साथ मुँह, नाक और बदन की सफाई कहीं भारी न पड़ जाए। बैंक भी ब्याज लेता है, लेकिन एक निश्चित दर से। लेकिन यह हाथ की सफाई का ब्याज तो हमारे पल्ले पड़ता ही नहीं। यह ब्याज के एवज में हमसे बदला ले रहा है। हमारे पड़े-लिखे मूख्य होने का हर कोई लाभ उठा रहा है।

न्यूज फ्लैश

25 हजार का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में गिरफ्तार

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी को मथुरा राजकीय रेलवे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। थाने पर इसके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत था। राजस्थान सहित कई राज्यों में इसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
थाना प्रभारी सदीप तोमर ने बताया कि पुलिस टीम ट्रेनों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत गस्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि द्वितीय एंटी पर बिजली घर के पास पेड़ के नीचे गैंगस्टर एक्ट का आरोपी पवन चौहान निवासी कोह थाना फरह खड़ा हुआ है। आरोपित ने पुलिस टीम को देखकर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

अब बतानी होगी वर वधू को मिले उपहारों की सूची

लोकेश चौधरी
मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
अब विवाह के बाद वर वधू को मिले उपहारों की सूची तैयार जमा करनी होगी।
दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के तहत अब विवाह के एक महीने के अंदर दोनों पक्षों को विवाह में मिले उपहार की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दहेज प्रतिबंध अधिकारी को सौंपनी होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी जनपद में जिला दहेज प्रतिबंध अधिकारी भी होता है। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने दहेज उल्पीडन की रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं जैसे कि अब सभी मैरिज हॉल, बैक्विट हॉल में इनका मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा। विवाह के पक्षकारों या माता पिता में से कोई या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिबंध अधिकारी को विवाह के एक महीने के भीतर सूची प्रस्तुत की जायेगी। अब से इस कानून का सख्तों से अनुपालन होगा और जिले में होने वाले सभी विवाह जो पंजीकृत हो या अपंजीकृत, उनके दोनों पक्षों को सूची बनाकर, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के बाद यह सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दहेज प्रतिबंध अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही जल्द ही सभी विवाह स्थल और गेस्ट हाउस के बाहर इसका बोर्ड स्थापित कराया जाएगा।

इंजन की चपेट में आने से महिला की मृत्यु

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
थाना राया की चौकी बिचपुरी क्षेत्र के गांव सुथरीया में सोमवार की सुबह वृद्ध महिला चार कूटने समय टूली की चपेट में आने से श्रीमती कश्मीरा (60) पत्नी स्व.रामवीर सिंह निवासी सुथरीया की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना ने पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया है।

तमंचा, कारतूस के साथ पकड़

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
थाना छाता पुलिस ने एक अभियुक्त को देशी तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सोमवार को दीनबन्धु स्कूल से करीब 50 मीटर पहले सर्विस रोड से एक अभियुक्त हरेदेव पुत्र टोकम निवासी ग्राम चन्दौरी थाना छाता जनपद मथुरा को एक देशी तमंचा व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

मददगार नाबालिग को पकड़ा

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की मदद करने के आरोप में पुलिस ने बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। थानाध्यक्ष शेरगढ़ नीरज भाटी ने बताया कि विगत दिनों एक नाबालिग को नामजद बहला फुसला कर ले गया था। इस का सहयोग गांव के ही बाल अपचारी ने किया था। इसकी जानकारी होने पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। नाबालिग पर आरोप है कि वह आरोपी के पास ना बालिग को बहला फुसला कर ले गया था।

अवैध चाकू के साथ एक युवक गिरफ्तार

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया थाना जैत पुलिस द्वारा एक आरोपी को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना प्रभारी जैत अश्वनी कुमार ने बताया उपनिरीक्षक पवन कुमार व जैत पुलिस टीम द्वारा ओमेक्स सिटी के पास छटीकरा वृन्दावन रोड पर बनी झोपड़ी से थाना जैत मुखबिर की सूचना पर रिजवान पुत्र (26 वर्ष) कुरवन निवासी ग्राम पीपरा थाना जोगिहाट विहार को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक नाजायज एक चाकू बरामद

24 घंटे में करोड़ी चोरी का खुलासा

खुलासा

चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी गई शतप्रतिशत नकदी को बरामद किया है।



अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था। 23 जून को मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. राधेलाल निवासी कमला नगर आगरा मूल निवासी कस्बा फरह जनपद मथुरा ने कस्बा फरह में स्थित अंजनी नन्दन गैस सर्विस के बगल से स्थित इमारत में अपनी दुकान में रखे एक करोड़ रुपयों की दुकान के ताले तोड़कर तिजोरी काटकर चोरी कर ले जाने की तहरीर दी थी। लीला उर्फ लीलाधर की निशादेही पर चोरी किये गये 4,30,000 रुपये बरामद किये गये तथा अभियुक्त कृष्णकान्त से 92 लाख रुपये बरामद किये गये तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गयी। अभियुक्त कृष्णकान्त फरह कस्बे में ही प्ले स्कूल से लेकर कक्षा पांच तक न्यू स्मार्ट बचपन प्री स्कूल चलाता है जिसमें लगभग 250 से 300 बच्चे हैं। स्कूल मुकेश अग्रवाल के परिसर में किराये पर संचालित है। अभियुक्त कृष्णकान्त द्वारा अलग से फरह मंदिर के पीछे अपनी जमीन पर स्कूल परिसर तैयार कराया जा रहा है। 28 मई को मुकेश अग्रवाल अपने पुत्र के साथ अपने परिसर में स्थित एक दुकान जिसमें उसके पिताजी

दुकान करते थे उसमें एक तिजोरी वजन करीब पांच क्विंटल है। जिसमें एक करोड़ रुपए लाकर रखे थे। 16 जून की रात्रि में पांच घण्टे तक तिजोरी को काटा और पैसे निकाल लिये। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना फरह कमलेश सिंह, निरीक्षक अपराध मुस्तकीम अली थाना फरह, एसआई सुभाष चन्द्र थाना फरह, एसआई अभय कुमार स्वाट टीम मथुरा, एसआई अर्जुन सिंह थाना फरह, एसआई नितिन तेवतिया थाना फरह, एसआई मनोज कुमार थाना फरह, एसआई यूपी अमित चौहान थाना फरह, एसआई यूपी राज वर्मा थाना फरह आदि थे।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बूथ स्तर पर करें पौधारोपण : योगेन्द्र

टीएम एक्शन इंडिया

राजकुमार प्रिंस
करनाल। भाजपा जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा ने असंध विधानसभा के गांव अरडाना में उपस्थित जनसमूह को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री बनने पर बधाई दी और उपस्थित ग्रामवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की करनाल लोकसभा में भारी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए उनका आभार भी प्रकट किया। योगेन्द्र राणा ने उन्नति एवं विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हरियाणा राज्य के जागरूक मतदाताओं का लोकसभा चुनाव में भागीदारी निभाने पर आभार जताकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास और उम्मीद है कि विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने से



लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाने का संकल्प हरियाणा की जनता ने ले लिया है। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जिस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की और भारत तथा विश्वभर में सभी लोगों से आह्वान किया कि वे आने वाले दिनों में अपनी मां को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पेड़ लगाएँ, उसी का अनुसरण करते हुए उसी प्रकार आप सभी हर एक बूथ पर 10 पेड़, जिसका एक पेड़ मां के नाम लगाएँ।

किसान सभा ने नीट को लेकर सपा छात्रसभा ने किया प्रदर्शन

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
उत्तर प्रदेश किसान सभा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान सभा ने मांग की है कि हमारी मांगे लम्बे समय से चली आ रही हैं। हम मांग करते हैं कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए और नीट परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। छीतर सिंह एड. ने बताया कि आज छात्र नौजवान, किसानों, गरीबों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि नीट की परीक्षा को बंद कर दोषियों को दंडित किया जाए। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। गांवों में पानी की समस्या है। हमारी मांग है कि सरकार उन लोगों को छत मुहैया कराये जिनके पास मकान नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी इस बात का सबूत है कि संघर्ष से जीत हासिल की जा सकती है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

नीट को लेकर सपा छात्रसभा ने किया प्रदर्शन

लोकेश चौधरी

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में सोमवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के बैनर तले सपाइयों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच कर ज्ञापन दिया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिये ज्ञापन में मांग की गई है। पूरे देश में एनटीए द्वारा नीट का एग्जाम पांच मई को कराया गया था। परेश लीक हो गया। लाखों होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तब एनटीए पर सवालिया निशान खड़ा किया था। उस समय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं



की गई। छात्रों ने मांग उठाई थी कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। समाजवादी छात्र सभा मांग करती है कि सबसे पहले एनटीए एग्जेंसी को बर्खास्त कर जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कर कार्यवाही की जाए तथा नीट परीक्षा पुनः कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में लोकसभा

70 प्रतिशत बीमारियां जल जनित: राज्य प्रशिक्षक अजित तिवारी

स्वच्छ पेयजल

लगभग 70 प्रतिशत बीमारियां जल जनित हैं। जिसे बचाव का उपाय ही स्वच्छ पेयजल है।



उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राज्य प्रशिक्षक अजित तिवारी ने कहा कि आने वाले समय में पानी वैश्विक स्तर पर बहुत कम उपलब्धता रहेगी। यदि हम इस पानी की बचत नहीं करते हैं तो हमारे लिए और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लगभग 70 प्रतिशत बीमारियां जल जनित हैं। जिसे बचाव का उपाय ही स्वच्छ पेयजल है। इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी लेकिन जिस तरह से हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं आने वाले समय में हमें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ जाएगा। इस दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को जल शपथ भी

कराई। जिसमें लोगों को पानी के विवेकपूर्ण उपयोग उसके संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन के प्रति शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में जिला परियोजना सम्यक अंकुश सिंह, सह जिला परियोजना समन्वयक राकेश सिंह, मनोज मद्देशिया, प्रदीप सिंह, प्रिंस सिंह, शुभम सिंह, चंद्रकेश आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वीडियो नेहा रावत, ए.डी.ओ. पंचायत विजय सिंह, कनिष्क सहायक दिनेश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर बच्चन सिंह व ब्लॉक परिसर के समस्त अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

ऑपरेशन जागृति में लव रिलेशन के प्रति किया जा रहा सचेत

लोकेश चौधरी
मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
ऑपरेशन जागृति के द्वितीय चरण में अभियान के अंतर्गत गांव गांव चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा गांव गांव जाकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए चौपाल लगाकर महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उल्पीडन की रोकथाम के लिए समस्त थानों पर ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत थानों पर गठित महिला सुरक्षा दल व ऑपरेशन जागृति टीम द्वारा थाना क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों यथा प्रमुख चौराहों, कस्बों, प्रमुख बाजारों, मन्दिरों, शिवालयों, शॉपिंग मॉल आदि के आस पास गश्त, चेकिंग करते हुए महिलाओं व बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के लिये जागरूक किया जा रहा है। महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थानों तथा मिशन शक्ति कक्ष में चौपाल लगाकर बालिकाओं को उच्चाधिकारियों के नम्बर व नारी सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान के तहत हेल्प लाइन नम्बर वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 व साइबर हेल्पलाइन 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग व झूठे मुकदमे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। लव रिलेशन के प्रति परिवारों, किशोर व किशोरियों को सचेत किया जा रहा है।

राया में धूमधाम से निकाली भगवान परशुराम की शोभायात्रा

ब्राह्मण सम्मेलन

ब्राह्मण सम्मेलन में संतों का हुआ सम्मान, शोभायात्रा के दौरान झांकियां भी रही आकर्षण का केंद्र



गया। ब्राह्मण सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर ब्राह्मण संतों द्वारा शंखनाद के साथ किया गया। सम्मेलन में संतों ने उपस्थित ब्राह्मणों को संबोधित किया। अपने विचार रखते हुए कहा कि आज हर एक जुटता की ओर है और ब्राह्मण पंथ से भटक रहा। संत जनों ने ब्राह्मणों की समाज में स्थान और उनके कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला। ब्राह्मण समाज के साथ साथ संत जनों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे। हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने अपने दिवंगत पति रामवीर उपाध्याय को याद करते हुए कहा कि इस प्रदेश में राम और श्याम की जोड़ी हुआ करती थी। मेरे पति ने ब्राह्मण

समाज के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने उपस्थित ब्राह्मण समाज को भरोसा दिलाया कि वह समाज की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को भगवान परशुराम के दिखाए रास्ते पर चलते हुए समाज सुंदर शर्मा, अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा, योगेश द्विवेदी, मनोज शर्मा, सुब्रह्मण्य, कन्हैया शर्मा, योगेश शर्मा, विष्णु शर्मा, विनोद उपाध्याय, सुशील शर्मा, तरुण पाराशर, डॉ प्रदुमन दीक्षित, वेदांत शर्मा, मोहित गौड़ ने किया।

नशा समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है : रोहताश सिंह रंगा

टीएम एक्शन इंडिया

नारनौल, 24 जून। उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष मीनिका गुप्ता (आईएसएस) के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति केन्द्र की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 26 जून तक चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं अवैध व्यापार रोकथाम दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम की कड़ी में आज नशा मुक्त समाज तथा समाज के लोगों में जागरूकता का प्रसार करने के लिए हुड्डा रामपुरा के शिव मंदिर में जागरूकता एवं मैडिकल शिविर का आयोजन किया। शिविर में लगभग 70 लोगों

यह अधिक विकराल रूप धारण करता जा रहा है। उन्होंने नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों का कल्याण बनाता है कि वे इस लत से बचपन से ही दूर रहें। नव युवकों को चाहिए कि स्वस्थ समाज के लिए नशे की दलदल से बचकर इस समाज की उन्नति के लिए आगे बढ़ना है जैसा संकल्प लेकर जीवन में सफल होना है। बुजुर्गों का भी यह कर्तव्य बनता है कि स्वयं को नशे की बुराई से दूर रखकर समाज को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

खाद्य तेल में मिलाजुला रुख; चना और चना दाल सस्ती

एजेंसी नई दिल्ली। विदेशी बाजारों की गिरावट के बीच स्थानीय स्तर पर उच्च सुस्त रहने से बीते सप्ताह दिल्ली थोक जिस बाजार में खाद्य तेल में मिलाजुला रुख रहा जबकि चना और दाल चना सस्ती हो गई वहीं अन्य



जिसमें के भाव स्थिर रहे। तेल-तिलहन: वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का जुलाई वायदा सप्ताह पर 64 रिगिट गिरकर 3927 रिगिट प्रति टन हो गया। इसी तरह जुलाई का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.11 सेंट की गिरावट के साथ 43.66 सेंट प्रति पीड बोला गया।

राज्यों को मुआवजा देने को लिए गए कर्ज को समय से पहले चुका सकता है केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को मुआवजा देने को लिए गए कर्ज का समय से पहले भुगतान कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को मुआवजा देने को 2.69 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उन्होंने बताया कि कर्ज को तय समय से चार महीने पहले नवंबर, 2025 तक चुकाया जा सकता है। बाजार से लिए गए कर्ज का पूरा भुगतान मार्च, 2026 तक किया जाना था। अधिकारी ने कहा कि अगस्त में जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। माल और सेवा कर लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए मुआवजा उपकरण को शुरू में पांच साल के लिए लाया गया था। क्षतिपूर्ति उपकरण जून, 2022 में खत्म हो गया, लेकिन लेवी के जरिये जमा की गई राशि का उपयोग केंद्र द्वारा कोविड-19 के दौरान उधार लिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपये के ब्याज और मूलभूत को चुकाने के लिए किया जा रहा है। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में शनिवार को कर्जाटक ने क्षतिपूर्ति उपकरण लागू करने, नया राशि के पुनर्भुगतान और आगे की व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा उठाया था। अधिकारी ने कहा कि राज्यों को बता दिया गया है कि नया राशि का भुगतान जल्दी किया जा सकता है। मार्च, 2026 के बजट नवंबर, 2025 तक ऐसा हो सकता है। इसलिए नवंबर, 2025 से आगे उपकरण राशि का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इस सब पर अगली परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी।

हिमाचल सरकार ने खरीफ फसल के लिए 9.70 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने इस सत्र में खरीफ फसल उत्पादन का लक्ष्य लगभग 9.70 लाख टन रखा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'कृषि विभाग ने खरीफ सत्र में 368 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि पर मक्का, धान, रागी, दलहन व अन्य खाद्यान्नों की बुवाई का लक्ष्य रखा है।' उन्होंने कहा कि खरीफ सत्र में मक्का की बुवाई का लक्ष्य सबसे ज्यादा 272 लाख हेक्टेयर रखा गया है। इसी तरह धान की बुवाई 73 हजार हेक्टेयर, दलहन की बुवाई 18 हजार हेक्टेयर और रागी जैसे खाद्यान्नों की बुवाई 12,700 हेक्टेयर में होनी है। इसके अलावा 87 हजार हेक्टेयर में सब्जियां और तीन हजार हेक्टेयर में अदरक की खेती का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 19 जून तक समय पर बारिश नहीं होने से प्रदेश में बुवाई धीमी रही है। हिमाचल में अधिकांश खेती बारिश पर निर्भर है लेकिन हर साल खरीफ सत्र में कृषि विभाग द्वारा खाद्यान्न और सब्जियों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस बार विभाग ने खरीफ सत्र में 9.70 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

भारत के समर्थन से श्रीलंका दो साल के आर्थिक संकट से निकल आया : राष्ट्रपति विक्रमसिंघे

कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका आर्थिक संकट के दो कठिन वर्षों से उबर पाया है और यह भारत से मिले 3.5 अरब डॉलर के वित्तीय सहायों के कारण संभव हो पाया है। विक्रमसिंघे ने भारत के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कोलंबो में 20-22 जून तक आयोजित 31वीं अखिल भारतीय साझेदार बैठक को संबोधित करते हुए विक्रमसिंघे ने कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पिछली भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा, 'दो मुश्किल वर्षों से गुजरने के बाद, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने हमें 3.5 अरब डॉलर का ऋण दिया था। वह सब चुका दिया जाएगा।' विक्रमसिंघे ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिस पर दोनों देश संयुक्त रूप से काम करेंगे।

कैट ने कहा, जीएसटी में राहत एक बड़ा सकारात्मक कदम, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

एजेंसी नई दिल्ली। कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं केंद्र सरकार और जीएसटी कार्डिसल का व्यापार करने में आसानी प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक कदम है। यानी आसानी प्रदान करने से व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इन राहतों से व्यापारियों को भारी वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी। खंडेलवाल ने कहा



कैट ने कहा कि इन राहतों से व्यापारियों को भारी वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी। खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी कार्डिसल ने किए गए महत्वपूर्ण घोषणाएं केंद्र सरकार और जीएसटी कार्डिसल का व्यापार करने में आसानी प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि जीएसटी करगणन को और अधिक सरल और तर्कसंगत बनाया जाएगा।

व्यापारी उच्च मांगों के मामलों में अपील के लिए नहीं जा सके, क्योंकि अपील दायर करने से पहले पूर्व-डिफॉजिट की अनिवार्य आवश्यकता थी। जीएसटी कार्डिसल ने अब जीएसटी के तहत अपील दायर करने के लिए आवश्यक पूर्व-डिफॉजिट की मात्रा को कम करने की सिफारिश की है। यह करदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करेगा और किसी भी अनिश्चितता को समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी कार्डिसल ने एक जुलाई, 2017 से अधिकृत संचालन के लिए एसईजेड इकाई/डेवलपर द्वारा आयत पर लागू गए मुआवजा उपकरण को हटाने की सिफारिश की है। इससे एसईजेड उपाय लागत-प्रतिस्पर्धी बनेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 53वीं जीएसटी कार्डिसल की बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव एवं हटाने के साथ ही कारोबारियों को भी कुछ राहत प्रदान की गई है।

एआई कुछ निश्चित भूमिकाओं को समाप्त कर देगी, लेकिन उससे अधिक नौकरियां पैदा होंगी: Deloitte

एजेंसी नई दिल्ली। कृत्रिम मेधा (एआई) जहां कुछ निश्चित भूमिकाओं को खत्म कर देगी वहीं उससे ज्यादा नई नौकरियां पैदा कर देगी। डेलॉयट के एआई कार्यकारी रोहित टंडन ने कहा कि भविष्य एआई-मानव के सहयोग का है, ना कि एआई मानवों की जगह ले लेगी। टंडन ने कहा कि वह एक क्रांतिकारी युग की कल्पना करते हैं, जहां प्रौद्योगिकी कार्यबल को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसे सशक्त बनाएगी। डेलॉयट एआई एल्गोरिदम आपके पर्स में, आपके बटुए में, आपकी जेब में होंगी। टंडन ने कहा, 'यह ऐसी चीज होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा।' उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कोई नई तकनीक आई है और उससे नौकरियां जाने का खतरा पैदा हुआ है।

जूरत है। टंडन ने कहा कि जब आईटी, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर परिदृश्य में आए तो नौकरियों के खत्म हो जाने का ऐसा ही डर था। उन्होंने कहा, 'लेकिन जरा देखिए कि आईटी की वजह से दुनियाभर में कितनी नौकरियां पैदा हुई हैं। एआई-मानव के साथ भी होने जा रही है। यह सर्वव्यापी होने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आज है, जैसे आपके पास आज के सबसे बड़े सुपरकंप्यूटर आपके फोन पर उपलब्ध है, कुछ सबसे शक्तिशाली एआई एल्गोरिदम आपके पर्स में, आपके बटुए में, आपकी जेब में होंगी।' टंडन ने कहा, 'यह ऐसी चीज होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा।' उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कोई नई तकनीक आई है और उससे नौकरियां जाने का खतरा पैदा हुआ है।

एनसीआर में अपना घर या व्यापारिक संस्थान बनाने का सपना जल्द होगा पूरा

एजेंसी गाजियाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अपना घर या व्यापारिक संस्थान बनाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) आगामी जुलाई महीने में अपनी विभिन्न आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं में खाली संपत्तियों को नीलामी के जरिए बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में नालामी शुरू हो जाएगी। नीलामी लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में आयोजित की जाएगी।

औद्योगिक भूखंड सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा 12 रूफ हार्डिंग्स प्लॉट, कन्वीनिएंट शॉपिंग भूखंड, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल और

जीडीए अधिकारियों का कहना है कि नीलामी में शामिल प्लॉट गाजियाबाद की कई प्रमुख योजनाओं मधुबन बांधूधाम, गोविंदपुरम,



दुकानों को भी नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इनमें 2 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट भी सम्मिलित किए गए हैं जो बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए आकर्षक हो सकते हैं। इसके पीछे जीडीए का उद्देश्य न केवल लोगों को घर बनाने के सपने को पूरा करना है बल्कि गाजियाबाद में व्यावसायिक और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देना है।

पानीपत के हैंडलूम निर्यात में 50 फीसदी की गिरावट, 16 हजार करोड़ पर आया कारोबार

एजेंसी पानीपत। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक हैंडलूम नगरी पानीपत का हैंडलूम निर्यात उद्योग जहां चार वर्ष से मंदी की मार झेल रहा है, वहीं अब इस उद्योग को सरकारी प्रोत्साहन की दरकार है। यह उद्योग इस समय अंतिम सांस ले रहा है। पानीपत से यूरोप के करीब 20 देशों में हैंडलूम के सामान का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से होम टेक्सटाइल, होम डेकोर के अंतर्गत आने वाले सामान जैसे- कारपेट, दर्री, बाथ मैट, कार्टन, कुशन, बेड कवर, किचन टेक्सटाइल, कंबल, श्रीडी बेडशीट सहित अनेक सामान यूरोप, अफ्रीका, तुर्की, इटली, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, स्विटजरलैंड, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, पुर्तगाल, यूनान, डेनमार्क, साइप्रस, बेलजियम, बोलारिया, फिनलैंड सहित अन्य देशों को भी निर्यात होता है। वर्ष 2020 में लॉकडाउन से पहले पानीपत का निर्यात करीब 32 हजार करोड़ रुपये था जो लॉकडाउन के बाद घटकर 20 हजार करोड़ पर आ

गया। रही सही कसर रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास की लड़ाई ने पूरी कर दी। वर्तमान में पानीपत का निर्यात घटकर सिर्फ 16 हजार करोड़ पर सिमट गया है, जो निर्यातकों की चिंता का विषय है। चैबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पानीपत के अध्यक्ष विनोद धर्मोजा के मुताबिक पानीपत से सरकार को जीएसटी के द्वारा तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक टैक्स के रूप में जाता है। इनकम टैक्स अलग जाता है, बावजूद इसके पानीपत के उद्योग को सुविधा के नाम पर सिर्फ टैंग मिलता है। जब से पानीपत इंडस्ट्री को सरकार ने एनसीआर में लिया है तब से दिल्ली के कड़े कानून लागू कर दिए हैं। अब किसी भी फैक्टरी से निकलने वाले काले व पीले धुंए पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब डीलर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर छोटे उद्योगों को तो कमर ही तोड़ दी है, दिल्ली के कानून तो लागू कर दिए लेकिन राजधानी की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्योंकि बिजली जाने पर जनेरटर चलाना पड़ता और प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी जनेरटर बिना ड्यूल फिल्टर लगाए नहीं चलना चाहिए, जबकि ड्यूल फिल्टर लगाए जाने का खर्च जनेरटर की कुल लागत का 70% का खर्च आता है। ऐसे में छोटा उद्यमी कहां से ड्यूल फिल्टर किराया देगा, क्योंकि बिजली के मुकाबले जनेरटर की बिजली महंगी पड़ती है। औद्योगिक क्षेत्र में सुविधा के नाम पर सड़कें टूटी, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं, बिजली पूरी नहीं मिलती जो छोटे उद्यमियों ने जो आंधराइडज छेत्र में फैक्टरी लगाई हुई है जिसको सरकार ने पॉवर कनेक्शन, जीएसटी नंबर, पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन दे रखा है और नगर निगम हाऊस टैक्स भी वसूलता है उसी फैक्टरी को नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिलता। धर्मोजा ने सरकार से मांग की है कि अगर पानीपत उद्योग को बचाना है और ऐतिहासिक नगरी पानीपत को विश्व के मानचित्र पटल पर चमकाना है तो कुछ राहत देकर पानीपत उद्योग को राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर रखा जाए।

गिरिराज सिंह करेंगे अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का मंगलवार को राजधानी में उद्घाटन

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 25 जून मंगलवार राजधानी के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले के 71वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। आयोजन तीन दिन चलेगा। यह मेला अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला सत्र (आईजीएफ) द्वारा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के सहयोग से भारत के तीन प्रमुख परिधान संघों अर्थात् भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई), परिधान निर्यातक

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 25 जून मंगलवार राजधानी के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले के 71वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। आयोजन तीन दिन चलेगा। यह मेला अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला सत्र (आईजीएफ) द्वारा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के सहयोग से भारत के तीन प्रमुख परिधान संघों अर्थात् भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई), परिधान निर्यातक

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 25 जून मंगलवार राजधानी के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले के 71वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। आयोजन तीन दिन चलेगा। यह मेला अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला सत्र (आईजीएफ) द्वारा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के सहयोग से भारत के तीन प्रमुख परिधान संघों अर्थात् भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई), परिधान निर्यातक

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 25 जून मंगलवार राजधानी के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले के 71वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। आयोजन तीन दिन चलेगा। यह मेला अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला सत्र (आईजीएफ) द्वारा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के सहयोग से भारत के तीन प्रमुख परिधान संघों अर्थात् भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई), परिधान निर्यातक

जयपुर रग्स का बाजार विविधीकरण, जेआर फार्मस प्लेटफार्म के माध्यम से जैविक कृषि उत्पाद बाजार में विस्तार

एजेंसी नई दिल्ली। वगलीचों का वैश्विक स्तर पर कारोबार करने वाली कंपनी जयपुर रग्स ने नवीं पहलु जेआर फार्मस के जरिए कृषि व्यवसाय में कदम रखा है और आर्गेनिक फल सब्जियों के बाजार में विस्तार करने की है। कंपनी के अनुसार उसकी यह पहलु छोटे जोत वाले जैविक किसानों और उचित बाजारों के बीच की दूरी पाटने की पहलु है। कंपनी के एक अधिकारी ने यूनानीवाता से कहा, 'तीन साल में देश के शहरी बाजारों में हम जैविक खाद्य

पदार्थों का एक विश्वसनीय स्रोत बनाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में हम प्रीमियम क्वालिटी और प्रमाणिकता का प्रतीक बनाना चाहते हैं।' अधिकारी ने कहा, 'जेआर फार्मस जैविक अनाज, दलहन और कोल्ड-प्रेस्ड खाद्य तेल को भी अपने उत्पादों के पोर्टफोलियो में जोड़ रहा है।'

जीएसटी परिषद के नतीजों का बाजार पर रहेगा असर 20 रुपये तक घट जाएगी तेल की कीमतें; जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार

एजेंसी मुंबई। विश्व बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर सरकार के खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने से हुई लिवाली की बदौलत बीते सप्ताह मजबूत रहे घरेलू शेयर बाजार पर अगले सप्ताह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक के नतीजों का असर रहेगा। बीते सप्ताह बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 217.13 अंक अर्थात् 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ समाप्त पर 77209.90 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 35.5 अंक यानी 0.2 प्रतिशत चढ़कर 23501.10 अंक हो गया। समीक्षाधीन सप्ताह में मद्दौली और छोटी कंपनियों के शेयरों में मिलाजुला रुख रहा। बीएसई का मिडकेप जहां 91.69 अंक अर्थात् 0.2 प्रतिशत गिरकर समाप्त पर 45967.07 अंक रह गया। वहीं,

स्मॉलकैप 736.54 अंक यानी 1.4 प्रतिशत आई छलांग लगाकर 51936.53 अंक पर पहुंच गया। प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से भी काफी अपेक्षाएं हैं, जो कि ध्यान देने

महंगाई दर घटकर दो प्रतिशत पर आ जाने के बावजूद बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने अपनी ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का विकल्प चुना, जिससे खस हद तक निराशा हुई। हालांकि, अब अगस्त में बीओई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। इसी तरह अमेरिका में बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है तथा कमजोर आवास आंकड़ों के कारण सितम्बर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना 67 प्रतिशत बढ़ गई है। जीएसटी बैठक के परिणाम से अगले सप्ताह इससे संबंधित क्षेत्र में तेजी आ सकती है क्योंकि वस्त्र, उर्वरक और बैंकिंग सहित कुछ क्षेत्रों में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर भी चर्चा की संभावना है। इस तरह अगले सप्ताह जीएसटी बैठक के नतीजों का बाजार पर असर रहेगा।

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20 रुपये तक की कमी आ सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने से न सिर्फ तेल कंपनियों को इनपुट पर चुकाए गए कर को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि देशभर में ईंधन पर टैक्स में एकसुपता आएगी। इसका मतलब है कि पूरे देश में पेट्रोल-डीजल लागू एक ही कीमत पर उपलब्ध होगा। दरअसल, जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20 रुपये तक की कमी आ सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने से न सिर्फ तेल कंपनियों को इनपुट पर चुकाए गए कर को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि देशभर में ईंधन पर टैक्स में एकसुपता आएगी। इसका मतलब है कि पूरे देश में पेट्रोल-डीजल लागू एक ही कीमत पर उपलब्ध होगा। दरअसल, जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20 रुपये तक की कमी आ सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने से न सिर्फ तेल कंपनियों को इनपुट पर चुकाए गए कर को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि देशभर में ईंधन पर टैक्स में एकसुपता आएगी। इसका मतलब है कि पूरे देश में पेट्रोल-डीजल लागू एक ही कीमत पर उपलब्ध होगा। दरअसल, जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है

प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। इस आधार पर जीएसटी लागू करने पर पेट्रोल की कीमत 75.01 रुपये और डीजल की 74.79 रुपये प्रति लीटर रह जाएगी। एक लीटर पेट्रोल पर 35.29 रुपये का टैक्स अगर आदेश दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 94.72 रुपये चुकाने हैं। इसमें से कुल 35.29 रुपये कर लगता है, जिसमें 19.90 रुपये एक्ससाइज ड्यूटी और 15.39 रुपये वैट शामिल है। एक्ससाइज ड्यूटी कर की झोली में जाता है, जबकि वैट राज्य सरकार वसूलती है। इसी प्रकार, 87.62 रुपये में एक लीटर डीजल खरीदने पर कुल 28.62 रुपये कर लगता है। इसमें एक्ससाइज ड्यूटी की हिस्सेदारी 15.80 रुपये

और वैट की 12.82 रुपये है। जीएसटी भुगतान से पहले जीएसटीआर-1 में संशोधन संभव : जीएसटी करदाताओं के पास अब मासिक या तिमाही करों के भुगतान से पहले बाहरी आपूर्ति या बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 में संशोधन करने का विकल्प होगा। हालांकि, संबंधित कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न जमा करने से पहले जीएसटीआर-1 पर दाखिल करना होगा। 53वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने करदाताओं को कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में विवरण संशोधित करने और अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की सुविधा के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1ए के जरिये एक नई वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी। इस कदम से कारोबार करने में आसानी होगी।

SBI की चालू वित्त वर्ष में 400 नई शाखाएं खोलने की योजना आम लोगों पर महंगाई की मार, Delhi NCR समेत इन शहरों में बड़े सीएनजी के दाम

नई दिल्ली। मुंबई विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष (2024-25) में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'किसी नए मुद्दे से पूछ कि 89 प्रतिशत डिजिटल और 98 प्रतिशत लेनदेन शाखा के बाहर हो रहे हैं, क्या अब शाखा की जरूरत है। मेरा जवाब हाँ है। यह अब भी जरूरी है क्योंकि गूगल

नई दिल्ली। मुंबई विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष (2024-25) में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'किसी नए मुद्दे से पूछ कि 89 प्रतिशत डिजिटल और 98 प्रतिशत लेनदेन शाखा के बाहर हो रहे हैं, क्या अब शाखा की जरूरत है। मेरा जवाब हाँ है। यह अब भी जरूरी है क्योंकि गूगल

नई दिल्ली। मुंबई विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष (2024-25) में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'किसी नए मुद्दे से पूछ कि 89 प्रतिशत डिजिटल और 98 प्रतिशत लेनदेन शाखा के बाहर हो रहे हैं, क्या अब शाखा की जरूरत है। मेरा जवाब हाँ है। यह अब भी जरूरी है क्योंकि गूगल

नई दिल्ली। मुंबई विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष (2024-25) में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'किसी नए मुद्दे से पूछ कि 89 प्रतिशत डिजिटल और 98 प्रतिशत लेनदेन शाखा के बाहर हो रहे हैं, क्या अब शाखा की जरूरत है। मेरा जवाब हाँ है। यह अब भी जरूरी है क्योंकि गूगल

नई दिल्ली। मुंबई विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष (2024-25) में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'किसी नए मुद्दे से पूछ कि 89 प्रतिशत डिजिटल और 98 प्रतिशत लेनदेन शाखा के बाहर हो रहे हैं, क्या अब शाखा की जरूरत है। मेरा जवाब हाँ है। यह अब भी जरूरी है क्योंकि गूगल

नई दिल्ली। मुंबई विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष (2024-25) में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'किसी नए मुद्दे से पूछ कि 89 प्रतिशत डिजिटल और 98 प्रतिशत लेनदेन शाखा के बाहर हो रहे हैं, क्या अब शाखा की जरूरत है। मेरा जवाब हाँ है। यह अब भी जरूरी है क्योंकि गूगल

नई दिल्ली। मुंबई विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष (2024-25) में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'किसी नए मुद्दे से पूछ कि 89 प्रतिशत डिजिटल और 98 प्रतिशत लेनदेन शाखा के बाहर हो रहे हैं, क्या अब शाखा की जरूरत है। मेरा जवाब हाँ है। यह अब भी जरूरी है क्योंकि गूगल

नई दिल्ली। मुंबई विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष (2024-25) में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण शाखाएं हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'किसी नए मुद्दे से पूछ कि 89 प्रतिशत डिजिटल और 98 प्रतिशत लेनदेन शाखा के बाहर हो रहे हैं, क्या अब शाखा की जरूरत है। मेरा जवाब हाँ है। यह अब भी जरूरी है क्योंकि गूगल

भारतीय रिकर्व तीरंदाजों ने जीते दो कांस्य पदक

एजेंसी
पेरिस। भारतीय तीरंदाजों ने पेरिस ओलंपिक से पहले शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में दो कांस्य पदक जीते। भारत के लिए धीरव बोम्मादेवरा और भजन कौर को मिक्स्ट रिकर्व टीम ने मैक्सिको को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत ने इस तरह इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का समापन चार पदक के साथ किया। भारत के लिए इससे पहले शनिवार को ज्योति सुरेखा वेत्रम, अदिति स्वामी और परनीत कौर की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जबकि प्रियांश ने रजत पदक जीता था। मिक्स्ट डबलस में तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी पहला सेट हारने के बाद 0-2 से पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद उसने बेहतरीन वापसी करके मैक्सिको के एलेजांद्रा वालेंसिया और मियास ग्रांडे को 5-3 (35-38, 40-39, 38-37, 38-38) से हराया। धीरज ने इसके बाद व्यक्तिगत वर्ग के क्वालीफिकेशन में तीसरे स्थान पर रहने के बाद देश को एक और पदक दिलाया। उन्होंने इटली के नीवें वरीय मार्को नेस्पौली को 7-3 (28-27, 29-28, 27-28, 28-28, 30-29) से हराया। यह विश्व कप में उनका दूसरा कांस्य पदक है। उन्होंने पिछले साल इसी स्थान पर प्रतियोगिता के शुरुआती चरण में अपना पहला पदक जीता था। धीरज इससे पहले सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के पूर्व ओलंपिक टीम पदक विजेता दक्षिण कोरिया के किम वूजिन से हार गए थे। सेना के इस जवान को अंतिम चार मैच में 2-6 (29-29, 27-30, 29-29, 27-29) से शिकस्त का सामना करना पड़ा।

आईओए ने पूर्व ओलंपियनों के लिए चिकित्सा बीमा, पेंशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा

एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि देश का यह शीर्ष खेल निकाय सभी पूर्व ओलंपियनों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना लाने योजना तैयारी की है। उषा ने आईओए की कार्यकारी समिति को सिफारिशें प्रस्तावित की हैं जिन पर जल्द ही चर्चा होगी। उषा को यह विचार भारतीय तीरंदाज लिंबा राम को दुर्घटना को देखने के बाद आया। प्रस्ताव के मुताबिक आईओए इन सभी खर्चों को पूरी तरह से अपने खजाने से वहन करेगा। उषा ने यहां अपने आवास पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर महान भारतीय खिलाड़ी गुरुचन सिंह रंधावा को सम्मानित करते हुए कहा, आईओए कई एथलीट-केन्द्रित कदम उठा रहा है और इनमें से हमारे सभी पूर्व-ओलंपियनों के लिए चिकित्सा बीमा और पेंशन शामिल है। उषा ने कहा, हमने सभी पूर्व ओलंपियनों के लिए कार्यकारी समिति सदस्यों को प्रस्ताव सौंप दिया है। यह पूर्व ओलंपियनों के योगदान की सराहना करना चाहते हैं। उषा ने कहा कि उन्हें यह विचार तब आया जब वह बीमार ओलंपियन लिंबा राम से मिलीं थीं। तीरंदाजी के इस दिग्गज खिलाड़ी को मस्तिष्क आघात हुआ था और उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए व्हीलचेयर पर आईओए से संपर्क किया था।

भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर किया वलीन स्वीप, शतक की हैट्रिक लगाने से चूकी मंधाना

नई दिल्ली। उपकप्तान स्मृति मंधाना की शानदार पारी के दम पर भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे मुकाबले में छह विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान लॉरा वोलवार्ट के अर्धशतक की मदद से 50 ओवर में आठ विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में मंधाना ने 83 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 90 रन की पारी खेली जिसके दम पर भारत ने 40.4 ओवर में चार विकेट पर 220 रन बनाकर मैच जीता। पहले दो मैचों में शतक लगाने वाली मंधाना महज 10 रन से लगातार तीसरा शतक लगाने से चूक गईं। पिछले दो मैचों में 117 और 136 रन की पारियां खेलने वाली मंधाना ने इस मैच में तीन शानदार साझेदारी कर टीम की जीत में योगदान दिया। उन्होंने पहले विकेट के लिए शेफाली वर्मा (25) के साथ 71 गेंद में 61 रन, जबकि दूसरे विकेट के लिए प्रिया पुनिया (28) के साथ 66 गेंद में 62 रन की साझेदारी की। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (42) के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंद में 48 रन की साझेदारी की। मंधाना ने 18वें ओवर में नोनुदुमिसो शेनोरोस के खिलाफ चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। मंधाना कुछ शानदार चौके लगाकर तेजी से लगातार तीसरे शतक की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन नॉनकुलुलेको म्बलाबा के खिलाफ स्वीप शॉट को फाइन लेग पर खरकाने के हाथों में खेल गईं। हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिग्स (नाबाद 19) जीत की औपचारिकता पूरी करने वाली थीं तभी भारतीय कप्तान रन आउट हो गईं। म्बलाबा ने हालांकि छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी।

एशिया कप के लिए बांग्लादेशी टीम में रुमाना अहमद, जहांआरा आलम की वापसी

एजेंसी
ढाका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आगामी महिला एशिया कप के लिए रुमाना अहमद और जहांआरा आलम की अनुभवी जोड़ी को अपनी राष्ट्रीय टीम में वापस बुलाया है। एशिया कप का आयोजन 19 से 28 जुलाई तक श्रीलंका में किया जाएगा। रुमाना ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के दौरान बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि जहांआरा ने आखिरी बार मई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला के दौरान बांग्लादेश के लिए खेला था। टीम की घोषणा के बाद बीसीबी की महिला विंग के मुख्य चयनकर्ता सज्जाद अहमद ने कहा, यह विश्व कप से पहले हमारा आखिरी प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट होगा। इसलिए हम इस टूर्नामेंट के लिए कुछ बदलाव करने का विकल्प चुनते हैं। उन्होंने कहा, रुमाना और जहांआरा लगभग एक साल से

राष्ट्रीय टीम से बाहर थीं। प्रीमियर लीग में उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा... हम अनुभवी, प्रतिभाशाली रुमाना ने चैंपियन मोहम्मडन स्पोंटिंग क्लब के लिए 241 रन बनाए और 17 विकेट भी लिए, जबकि जहांआरा ने प्रतिनिधित्व करने वाली जहांआरा ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट (25) लिए। इन दो क्रिकेटर्स के अलावा, बीसीबी ने टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में अर्नकेड ओपनिंग बल्लेबाज इश्मा तंजीम और बाएं हाथ की स्पिनर सबिनुन नाहर जेसमिन को भी

रोनाल्डो के साथ 'सेल्फी' लेने की घटना के बाद एक्शन में यूएफा

एजेंसी
प्रैग। यूरोपीय चैंपियनशिप में खेल प्रेमियों को खिलाड़ियों तक पहुंचने से रोकने के लिए मैदान के बाहर किनारे पर सुरक्षा बढ़ायी जाएगी क्योंकि कम से कम छह प्रशंसकों ने

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की थी। यूएफा ने कहा कि जर्मनी के 10 स्टेडियमों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जायेंगे। हालांकि इस योजना के संबंध में कोई विस्तृत

टी-20 विश्व कप: दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में, वेस्टइंडीज को दी 3 विकेट से शिकस्त

एजेंसी
एटिगुआ। दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार की सुबह (भारतीय समयानुसार) यहां आईसीसी टी-20 विश्व कप के सुपर 8 के एक रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। बारिश से बाधित इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए।

जवाब में जब दक्षिण अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पहले ओवर में क्रिंटन डी कॉक ने 12 रन जोड़े। हालांकि आंद्रे रसेल ने दूसरे ओवर में रीजा हैंड्रिक्स (00) और डी कॉक (12) को आउट कर अफ्रीकी टीम की शुरुआत बिगाड़ दी। बारिश ने खला खेल में खलट, दक्षिण अफ्रीका को 17 ओवर में मिला 123 रनों का लक्ष्य हालांकि इसके बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने के बाद दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 17 ओवर में 123 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला।

दक्षिण अफ्रीका को कप्तान एडन मार्करम और ट्रिस्टन स्टब्स ने सही शुरुआत दिलाई। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 27 रन जोड़े, इस साझेदारी को अल्जारी जोसेफ ने आउट कराया। डेविड मिलर कुछ खास नहीं कर सके और 93 के कुल स्कोर पर रोस्टन चेज ने उन्हें बॉल्ड

कर दक्षिण अफ्रीका पांचवां झटका मारकर 15 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 18 रन बनाए। मार्करम के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हेनरिक क्लासेन ने तेजी से बल्लेबाजी करनी शुरू की और केवल 10 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 22 रन बनाए। 77 के कुल स्कोर पर अल्जारी जोसेफ ने क्लासेन को विकेटकीपर पून के हाथों कैच

कर दक्षिण अफ्रीका पांचवां झटका मारने के चक्कर में मिडऑन पर काइल मेयर्स को कैच धमा दिया। स्टब्स ने 27 गेंदों पर 4 चौकों की बदौलत 29 रन बनाए। 16वें ओवर में 110 के कुल स्कोर पर केशव महाराज (02) को रोस्टन चेज ने आउट कर दक्षिण अफ्रीका को



इटली ने जापान को हराकर महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग का खिताब जीता

एजेंसी
बैंकॉक। इटली ने फाइनल में जापान को 25-17, 25-17, 21-25, 25-20 से हराकर एफआईवीबी महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग (वीएनएल) का खिताब जीत लिया है। इटली की स्टार खिलाड़ी पाओला एगोनो ने गेम में सर्वाधिक 27 अंक बनाए। 25 वर्षीय खिलाड़ी, जिसमें अपनी टीम के 12 किल ब्लॉक में से चार रिकॉर्ड किए और इटली के 66 सफल हमलों में से 23 को अंजाम दिया, को महिलाओं की वीएनएल 2024 की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया। मैच में पहले दो सेट

हारने के बाद, जापान ने तीसरा सेट जीतकर मैच में वापसी की, लेकिन करना पड़ा, जो कि वीएनएल में टीम का अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। वे इससे ज्यादा नहीं कर पाए और चौथे सेट में हार के साथ ही उन्हें जापान को रजत पदक से संतोष

लखनऊ। टोक्यो ओलंपिक की ऐतिहासिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस बार पेरिस ओलंपिक में पदक के लिए मजबूत दावेदारी करेगी। इस दिशा में सोमवार से बेंगलुरु के साई सेंटर में शुरू होने वाले दो दिवसीय टूरल के माध्यम से आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का चयन किया जाएगा। इस टीम का चयन हॉकी इंडिया के मुख्य चयनकर्ता डॉ. आरपी सिंह की मौजूदगी में होगा। पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी व यूपी हॉकी के सचिव डॉ. आरपी सिंह उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक भी हैं। इस बारे में डॉ. आरपी सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी में वर्तमान में बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और हम पेरिस ओलंपिक में पॉडियम पर पहुंचने के हकदार हैं। मेरा प्रयास होगा कि निपथथ टूरल के माध्यम से समुचित टीम का चयन किया जाये पेरिस ओलंपिक खेलों में मुख्य चयनकर्ता डॉ. आरपी सिंह हॉकी इंडिया का भी



यूरो 2024: ग्रुप ए विजेता के रूप में जर्मनी ने अंतिम 16 में किया प्रवेश

एजेंसी
बर्लिन। निकोलस फुलक्रग के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की मदद से मेजबान जर्मनी ने स्विट्जरलैंड के साथ 1-1 से ड्रा खेला और ग्रुप ए विजेता के रूप में यूरो 2024 के अंतिम 16 दौर में प्रवेश किया। जर्मनी पहले ही दो गेम में दो जीत हासिल कर चुका था और उसे ग्रुप में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत थी। मैच में स्विट्जरलैंड ने अर्धशतक की ओर बढ़ रही थी, लेकिन नॉनकुलुलेको म्बलाबा के खिलाफ स्वीप शॉट को फाइन लेग पर खरकाने के हाथों में खेल गईं। हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिग्स (नाबाद 19) जीत की औपचारिकता पूरी करने वाली थीं तभी भारतीय कप्तान रन आउट हो गईं। म्बलाबा ने हालांकि छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी।

स्विट्जरलैंड की बहुत दोगुनी करने का मौका मिला, लेकिन वह 16 तक 1-0 से आगे रही मध्यांतर के बाद जर्मनी ने गेंद पर कब्जा कर लिया और मैच में वापसी करने का प्रयास किया। 84वें मिनट में

स्विट्जरलैंड को एक और गोल करने का मौका मिला, लेकिन रुबेन वर्गास के गोल को ऑफसाइड करार दिया गया। जर्मनी ने लगातार प्रयास जारी रखा और मैच के अंतिम क्षणों में उन्हें इसका इनाम मिला जब फुलक्रग ने डेविड राउम के क्रॉस को गोल में बदलकर मैच 1-1 से बराबरी पर पहुंचा दिया। इस ड्रा के साथ ही जर्मनी ने ग्रुप ए विजेता के रूप में यूरो 2024 के अंतिम 16 दौर में प्रवेश किया। ग्रुप ए में जर्मनी 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद स्विट्जरलैंड (5 अंक), हंगरी (3 अंक) और स्कॉटलैंड (1 अंक) रहे। यूरो 2024: ग्रुप ए विजेता के रूप में जर्मनी ने अंतिम 16 में किया प्रवेश।



डब्ल्यूटीटी कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं श्रीजा अकुला



एजेंसी
नई दिल्ली। श्रीजा अकुला डब्ल्यूटीटी कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पैडलर बन गई हैं। उन्होंने नाइजीरिया के लागोस में फाइनल में चीन की विश्व नंबर 504 डिंग यिजी को 4-1 (10-12, 11-9, 11-6, 11-8, 11-6) से हराया। भारत की दूसरे नंबर की पैडलर ने अर्चना कामथ के साथ मिलकर हमवतन दीपा चितले और यशस्विनी घोषपड़े को 3-0 (11-9, 11-6, 12-10) से हराकर महिला युगल का खिताब भी जीता। श्रीजा और अर्चना ने सेमीफाइनल में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता अयहिका मुखर्जी और सुतीर्थ मुखर्जी के खिलाफ 3-0 (11-7, 11-5, 12-10) से जीत हासिल की थी। दूसरी ओर, दीपा और यशस्विनी ने अपने अंतिम-चार मुकाबले में चीन के सुनू सिमान और डिंग पर 3-1 (14-12, 6-11, 11-6, 11-7) से जीत दर्ज की थी। हरमीत देसाई और मानव ठक्कर इस स्तर पर जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल बन गए, उन्होंने पुरुष युगल फाइनल में स्थानीय पसंदीदा अजीज सोलंके और ओलाजिदे ओमोटायो को 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) से हराया। श्रीजा, अर्चना, हरमीत और मानव पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम का हिस्सा हैं, जिसका नेतृत्व शरत कमल और मनिंका बत्रा करेंगे।

पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का मुख्य चयनकर्ता होंगे डॉ. आर.पी. सिंह

एजेंसी
लखनऊ। टोक्यो ओलंपिक की ऐतिहासिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस बार पेरिस ओलंपिक में पदक के लिए मजबूत दावेदारी करेगी। इस दिशा में सोमवार से बेंगलुरु के साई सेंटर में शुरू होने वाले दो दिवसीय टूरल के माध्यम से आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का चयन किया जाएगा। इस टीम का चयन हॉकी इंडिया के मुख्य चयनकर्ता डॉ. आरपी सिंह की मौजूदगी में होगा। पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी व यूपी हॉकी के सचिव डॉ. आरपी सिंह उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक भी हैं। इस बारे में डॉ. आरपी सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी में वर्तमान में बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और हम पेरिस ओलंपिक में पॉडियम पर पहुंचने के हकदार हैं। मेरा प्रयास होगा कि निपथथ टूरल के माध्यम से समुचित टीम का चयन किया जाये पेरिस ओलंपिक खेलों में मुख्य चयनकर्ता डॉ. आरपी सिंह हॉकी इंडिया का भी

एशियन चैंपियनशिप में रोहतक की मुस्कान व दिपांशी ने अंडर-17 मुकाबलों में जीता स्वर्ण, परिवार में जश्न

एजेंसी
रोहतक। रोहतक के सर छोटू राम स्टेडियम अखाड़ी की दो महिला पल्लवान दीपांशी व मुस्कान ने जार्डन में आयोजित अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये चैंपियनशिप जार्डन में 22 से 30 जून तक हो रही है। कोच मदीप ने बताया कि जार्डन में आयोजित कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में गांव रिखल निवासी दीपांशी 46 किलोग्राम भार वर्ग व गांव अस्थल बोहर निवासी मुस्कान 53 किलोग्राम भार वर्ग में दोनों पल्लवानों ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोनों पल्लवानों के शानदार प्रदर्शन से अखाड़ी की सभी पल्लवानों को प्रेरणा मिलती है। स्वर्ण पदक जीतने पर पल्लवानों के परिवार व अखाड़ी 2024: ग्रुप ए विजेता के रूप में जर्मनी ने अंतिम 16 में किया प्रवेश।



टी20 विश्वकप: जॉर्डन की हैट्रिक और बटलर के तूफान में उड़ा यूएसए, 10 विकेट से जीता इंग्लैंड

एजेंसी
बारबाडोस। टी20 विश्वकप के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड ने यूएसए को 10 विकेट से हरा दिया है। 62 गेंद शेष रहते इंग्लैंड को इस जीत से उनके रन रेट में भी काफी सुधार हुआ और वो सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर गईं। इंग्लैंड की जीत में जहां तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन की हैट्रिक की भूमिका रही, वहीं बल्लेबाजी में कप्तान जोस बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर अमेरिकी गेंदबाजों को लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी। इस बीच बटलर ने हरमीत सिंह के एक ही ओवर में 5 छक्के लगाए। हरमीत के ओवर में कुल 32 रन आए।



यूएसए की टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी और 19वें ओवर में ही ऑलआउट हो गई। यूएसए के लिए नितीश कुमार ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। उनके अलावा, कोरी एंडरसन ने 29 रन, हरमीत सिंह ने 21 रन और स्टीवन टेलर ने 12 रन बनाए। जबकि एरोन जेम्स ने 10 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए सबसे सफर गेंदबाज क्रिस जॉर्डन रहे, जिन्होंने हैट्रिक के साथ एक ही ओवर में चार विकेट चटकवाए। जॉर्डन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी बनें। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस इसी वर्ल्ड कप में 2 बार हैट्रिक ले चुके हैं।

यूएसए की ओर से मिले 116 रन के लक्ष्य को जोस बटलर और फिलिप साल्ट ने 9.4 ओवर में प्राप्त कर लिया। बटलर की 38 गेंदों में 83 रन की तेज तर्रार पारी और फिलिप साल्ट की 25 रन की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को बिना किसी क्षति के मैच जीतने में मदद की। इससे पहले, टीएस हारकर बल्लेबाजी करते हुए यूएसए ने 115 रन बनाए।

ओलंपिक डे रन के बाद पचास उदीयमान खिलाड़ियों को दिया गया विजयपथ सम्मान

एजेंसी
लखनऊ। पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए लखनऊ में ओलंपिक डे रन का आयोजन किया गया। केंडी सिंह बाबू स्टेडियम में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के नेतृत्व में लखनऊ ओलंपिक संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस-2024 पर हुई ओलंपिक डे रन के बाद आयोजित ओलंपिक दिवस समारोह में 50 उदीयमान खिलाड़ियों को विजयपथ सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक (चेयरमैन, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ) ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर सभी का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार ने खेलों को गति देने का काम किया है और अब खेल नई

ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने ओलंपिक दिवस के आयोजन को भूर्र-भूर्र प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से लखनऊ में खेलों को नए आयाम मिलेंगे, इसके लिए लखनऊ ओलंपिक संघ के महासचिव डा.सैयद रफत जुबैर रिजवी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र हैं। इससे पहले आज आयोजित ओलंपिक डे रन को उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ.आनन्देश्वर पाण्डेय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ओलंपिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डा.आनन्देश्वर पाण्डेय ने कहा कि लखनऊ ओलंपिक संघ द्वारा हुआ यह आयोजन लखनऊ के खिलाड़ियों के हौसले का प्रतीक है और आज इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहां इकट्ठे हुए, उसकी जितनी भी सराहना की जाये, वह कम है।

फास्ट न्यूज

गुजरात के 3 जिलों में मानसून का रेड अलर्ट

टीम एक्शन इंडिया अहमदाबाद: गुजरात में मानसून दक्षिण गुजरात से आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र की ओर पहुंच गया है। दक्षिण गुजरात के साथ ही अब सौराष्ट्र में मानसून की एंटी हो चुकी है। सोमवार सुबह से राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के दौरान सौराष्ट्र के द्वारका, जामनगर और दक्षिण गुजरात के वलसाड में रेड अलर्ट जारी किया है। सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य की 252 तहसीलों में से 96 तहसील में बारिश हुई है। बारिश के कारण जहां जामनगर की कालावड तहसील के मूलिया के समीप पुल में गड्ढा हो गया। बोटाद जिले के बरवाला बौराहे के पास बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी दिनों में कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार देवभूमि द्वारका, जामनगर, वलसाड समेत केन्द्र शासित प्रदेश दमण, दादरा और नगर हवेली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, दीव, सुरत, नवसारी, तापी और डांग के लिए अंतिम अलर्ट जारी किया गया है। अरवली और महिसागर जिले के लिए विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव के अनुसार दक्षिण गुजरात की ओर साइडलोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने से राज्य के कुछ जिलों में मध्यम तो कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके तहत सौराष्ट्र के समुद्र किनारे और दक्षिण गुजरात के समुद्र किनारे क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बोटाद जिले की बरवाला तहसील के चौकडी गांव में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई।

'आत्मनिर्भर भारत-विकसित भारत' की संकल्पना: योगी

टीम एक्शन इंडिया लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में तीसरी बार शपथ ली। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्' पर सीएम योगी ने लिखकर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि लोकसभा सदस्य के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने की आपको हार्दिक बधाई! आपके यशस्वी नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर भारत-विकसित भारत' की संकल्पना साकार हो रही है। निःसंदेह, यह तीसरा कार्यकाल 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा।

गठित होगा शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण

नगर निगम का दर्जा देने के बाद शाहजहांपुर को मुख्यमंत्री का एक और उपहार

टीम एक्शन इंडिया लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर के दीर्घकालिक सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता जताई है। सोमवार को आवास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया वर्षों में शाहजहांपुर व आस-पास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अनेक परियोजनाओं से यहां एक ओर जहां औद्योगिक विकास तेज हुआ है, वहीं, आबादी में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल में ही शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया गया है। यहां पूर्व से ही विनियमित क्षेत्र है। हाल



ही में यहां का मास्टर प्लान-2031 भी तैयार कराया गया है और अब आवश्यकता है कि शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरण के गठन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि

प्राधिकरण के अंतर्गत आ रहे गांवों में आबादी की भूमि को ग्रीन लैंड कतई न घोषित किया जाए। आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनेक सरकारी भवन या तो उपयोग में नहीं

फैसला
वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल में ही शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया गया है

है अथवा निर्माण कार्य अधूरा है। इन्हें चिन्हित कर पूरा कराये और सदुपयोग किया जाए, साथ ही कहा कि पीएम जनविकास कार्यक्रम के कार्यों के तेजी से आगे बढ़ाए जाए। शाहजहांपुर के विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ट्रिज्य पोर्टेडिगल को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। देश

से सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं। इन सकारात्मक परिस्थितियों ने होटल इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाओं को जन्म दिया है। बड़ी संख्या में होटलों की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। होटल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए हमें अपने बिल्डिंग बाइलॉज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आवासीय क्षेत्र में 06 कमरों से 20 कमरों तक के होटल निर्माण के लिए न्यूनतम भूमि और होटल तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई की न्यूनतम सीमा में बदलाव किया जाना चाहिए। साथ ही, पार्किंग, सिस्कोरिटी और फायर सेफ्टी जैसे अतिमहत्वपूर्ण विषयों में मानक का सख्ती से अनुपालन कराया जाए।



राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम करें आयोजित: सीएम

टीम एक्शन इंडिया भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ (छग) की भौगोलिक सीमा के साथ-साथ दोनों राज्यों की साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत है। दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा कुछ कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किए जा सकते हैं। व्यवस्था और प्रबंधन की दृष्टि से दो राज्य बने हैं, पर भावनात्मक रूप से हम एक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री अरुण



साव के साथ आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल को समस्त भवन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के जनप्रतिनिधि राष्ट्र निर्माण को समर्पित हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों से मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए

व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री साव के नेतृत्व में आये दल को किया संबोधित

सुझाव और सहयोग का आह्वान करते हुए उन्हें अपने ज्ञान और कौशल का मध्य प्रदेश में भी विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया।

सीएम तमांग पीएम मोदी से मिले, उठाया जनजाति मान्यता

शिद्यचार मुलाकात
मुख्यमंत्री ने भारत-चीन सीमा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-310ए की बहाली के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया



टीम एक्शन इंडिया गंगटोक: मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिद्यचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए बधाई दी और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री तमांग ने आज अपने आधिकारिक फेसबुक पेज के जरिये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने लगातार समर्थन, खासकर पिछले साल अक्टूबर में सिक्किम में आई बाढ़ के दौरान तत्काल राहत के लिए धन्यवाद दिया। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए 3673.25 करोड़ रुपये की आपदा के बाद आवश्यकता आकलन

ई-स्टाम्प को और अधिक सुरक्षित बनाएगी योगी सरकार

टीम एक्शन इंडिया लखनऊ: योगी सरकार प्रदेश में ई-स्टाम्प को और अधिक सुरक्षित बनाने जा रही है। इसके लिए स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुरूआत में छोटी रकम के ई-स्टाम्प के जरिए इस सुविधा का लाभ जनता को देने की तैयारी है। इन ई-स्टाम्प को आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन प्रमाणन के बाद पर्सनलाइज्ड कर-के उसी आधार कार्ड धारक के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के प्रयोग के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। इससे जाली स्टाम्प के भय से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। विभाग ई-स्टाम्प के नये प्रारूप की डिजाइन भी फाइनल कर चुका है।

तैयारी
शुरूआत में छोटी रकम के ई-स्टाम्प के जरिए इस सुविधा का लाभ जनता को देने की तैयारी है

प्रयोग किया जाएगा। नये प्रारूप की रूपरेखा और ई-स्टाम्प को सुरक्षित रखने के लिए 9 प्रकार के विशेष नये सिस्कोरिटी फीचर्स इस्तेमाल में लाए गये हैं। इसमें 1-डी बार कोड, स्टैटिक लाइन, एसडी अमाउंट, स्टैटिक एक्सडी अमाउंट, टेक्स्ट थ्रेड, एएसवाईएम सर्टिफिकेट आईडी, खरीददार का नाम, सिंगल लेयर कोड, टेक्स्ट थ्रेड डेट, टेक्स्ट रिबन और बीजी का उपयोग किया गया है। इसके जरिए जाली स्टाम्प

बनाना असंभव हो जाएगा। छोटे मूल्य के ई-स्टाम्प की रहती है सबसे अधिक मांग: बता दें कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर के मुद्रण में तकरीबन 16 रुपए का खर्च आता है। इसमें कानपुर डिपो से उसके परिवहन की लागत भी शामिल है। छोटे मूल्य के स्टाम्प का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। शपथ पत्र, विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं, विद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश के वक्त, सेवायोजन में और लोक शिक्षायातों में छोटे मूल्य के स्टाम्प पेपर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। 2023-24 के आंकड़ों पर गौर करें तो 100 रुपए से अधिक मूल्य के 47 लाख से अधिक ई-स्टाम्प जारी किये गये, वहीं 100 रुपए से कम मूल्य के 2 करोड़ 56 लाख से अधिक ई-स्टाम्प पेपर जारी किये जा चुके हैं।

तस्करों ने किया बीएसएफ पर हमला

टीम एक्शन इंडिया कोलकाता: उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद की सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों पर तस्करों ने हमला कर दिया है। इसके बाद बीएसएफ जवानों की ओर से जवाबी फायरिंग के बाद तस्कर भाग खड़े होने को मजबूर हुए हैं। सोमवार को बीएसएफ की ओर से जारी बयान में इस बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि बांग्लादेशी तस्करों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में दक्षिण बंगाल सीमान्त के तहत क्षेत्रीय मुख्यालय बरहामपुर के इलाके में 23 जून की रात्रि में बीएसएफ की सीमा चौकी कहरापाड़ा के जवानों पर फिर से



तेजधार वाले हथियारों से जानलेवा हमला कर तस्करों को कोशिश की। सीमा चौकी-कहरापाड़ा, 73वीं बटालियन के बहादुर जवानों ने मुहतोड़ जवाब देते हुए आत्मरक्षा में की गयी फायरिंग के जरिए तस्करों के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर बांग्लादेशी तस्करों को वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया। घटनास्थल

तस्करी
कहरापाड़ा के जवानों पर फिर से तेजधार वाले हथियारों से जानलेवा हमला कर तस्करों को कोशिश की

की तलाशी के दौरान तेजधार वाले हथियार व तलवार बरामद हुई। इस सीमा चौकी में ज्यादातर इलाका बिना तारबंदी का है। चूंकि भी सीमा के काफी नजदीक है। सीमा रेखा के पास बार-बार मना करने पर भी अकसर तस्करों में लिप्त कुछ लोग जानबूझ कर ऊंची फसलें लगाते हैं।

जेल में एचआईवी संक्रमित निकली 'लुटेरी दुल्हन'

टीम एक्शन इंडिया मुजफ्फरनगर: दो टा थी, नकली नामों से पहले शादी करती थी फिर पूरे घर का माल साफ कर अपने साथियों संग नए शिकार की तलाश में निकल जाती थी। ऐसी टा लुटेरी दुल्हन एंड कम्पनी को पुलिस ने घर दबोवा और जेल भेज दिया। लेकिन जेल में जांच के बाद जब लुटेरी दुल्हन एचआईवी संक्रमित निकली, तो उसके सभी परिवारों में हड़कम्प मच गया। कुछ समय पहले पकड़ी गई थी गैंग: दरअसल, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में गत 6 मई 2024 को शाना तितावी पुलिस ने खुलासा करते हुए एक दुल्हन साहित 7 महिला और पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन



लोगों के खिलाफ शाना तितावी क्षेत्र के गांव खेड़ी दूधधारी निवासी बादल पुत्र कविन्द्र ने तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, कि उक्त लोगों ने निक्की नाम की महिला से उसकी शादी कराई थी। उसके बाद दुल्हन उसके घर में नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गयी थी। कविन्द्र की शिकायत पर पुलिस ने दुल्हन साहित 5 महिलाओं और नन्हें व इरशाद साहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पशुधन गणना के लिए विज्ञान भवन में कल होगा कार्यशाला का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: पशुपालन और डेयरी विभाग पशुधन गणना के लिए 25 जून 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यशाला में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि होंगे। डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस्पपी सिंह बघेल, जॉर्ज कुरियन और सचिव अलका उपाध्याय भी मौजूद होंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी

ओपन हाउस
कार्यशाला में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि होंगे

मंत्रालय ने आज सोमवार (24 जून) को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक उद्घाटन समारोह के बाद कार्यशाला प्रारंभ होगी। इसमें पशुधन गणना पद्धति पर विस्तृत

सत्र, मोबाइल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड पर प्रशिक्षण, प्रतिभागियों के प्रश्नों और चिंताओं का समाधान करने के लिए एक ओपन हाउस चर्चा होगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को 21वीं पशुधन गणना का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए एक मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर सहित आवश्यक साधनों से लैस करना है।

पहले रील बनाई, फिर गले में तार डालकर झूले लड़का-लड़की

टीम एक्शन इंडिया बाड़मेर: नागाणा थाना इलाके के गांव बांदरासर में रविवार रात शादीशुदा युवक और नाबालिग लड़की ने पेड़ की डाल पर बैठकर रील बनाई। इसके बाद युवक ने वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया। बाद में दोनों लोहे के तार का फंदा बनाकर उसी डाल से झूल गए। दोनों की मौत हो गई। नागाणा थाना इंचार्ज जमीन खान ने बताया कि नाबालिग लड़की (16) चौहटन थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली थी। शनिवार रात लड़की और

खरथाराम (25) पुत्र उम्मेदराम ने एक साथ फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव नागाणा हॉस्पिटल की मोर्चरी में हैं। परिजनों ने रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाएंगे। युवक खरथाराम शादीशुदा था और उसके एक बेटा भी है। पुलिस ने बताया कि चौहटन थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार लड़की की चचेरी बहन ने उसका परिचय खरथाराम से कराया था। 21 जून की रात दो बजे चचेरी बहन ने खरथाराम को बुलाया।

पर्यटन पर बल 'आध्यात्मिक सर्किट' के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी योगी सरकार

टीम एक्शन इंडिया लखनऊ: उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार का प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस है। प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी के विजन अनुसार 12 मेगा टूरिज्म सर्किट्स का विकास जारी है, इसी क्रम में योगी सरकार द्वारा आध्यात्मिक सर्किट में छिपी अपार संभावनाओं को लक्षित करते हुए पर्यटन विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान की गई है। सीएम योगी की मंशा अनुसार आध्यात्मिक सर्किट में पर्यटन

विकास को लेकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई थी और इसी कार्ययोजना को क्रियान्वित करते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्ययोजना के अनुसार, आध्यात्मिक सर्किट में पर्यटन विकास के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के सर्वे व टूरिस्ट गैप एनालिसिस प्रक्रियाओं को पूर्ण कराया जाएगा। खास बात है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए यूपी टूरिज्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2022 के अनुसार 7 एस पर आधारित मानकों को मुख्यतः ध्यान में रखा जाएगा जिसमें सूचना,



स्वागत, सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, संरचना व सहयोग प्रमुख हैं। टूरिस्ट गैप एनालिसिस को लेकर तैयार की जाएगी डीपीआर: उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों पर्यटन के लिहाज से काफी तर्कवी की है और आज वह देश के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शुमार है। यही कारण

है कि यहां बड़ी तादात में पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स का आगमन हो रहा है। दूसरी ओर, श्री काशी विश्वनाथ धाम को कॉरिडोर से सजाने और श्री अयोध्या धाम के विकास कार्यों ने हाल के वर्षों में इन दोनों स्थानों को प्रदेश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन भी होने जा रहा है जिसमें कम से कम 30 करोड़ लोग हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में, प्रदेश में टूरिस्ट गैप एनालिसिस के आंकलन के लिए एक डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(डीपीआर) तैयार किया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश के आध्यात्मिक सर्किट समेत विभिन्न सर्किट्स में पर्यटन विकास की प्रक्रिया को एक नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा, यह रिपोर्ट ब्रांडिंग व मार्केटिंग आदि के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसके जरिए ही आध्यात्मिक सर्किट के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की हैडलिंग कैम्पेसिटी समेत विभिन्न मानकों का निर्धारण होगा और इन्हें मानकों का आधार पर तय होगा कि किस स्ट्रेटजी को अपनाकर किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का सबसे बेहतर विकास हो सकता है।